दैनिक

लखनऊ से प्रकाशित एवं उ.प्र., बिहार ,झारखण्ड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में प्रसारित

RNI-UPHIN/2014/58471

अमन लेखनी

मुंबई के पॉश इलाके में .....

सुहाना खान रूमर्ड.....

वर्ष : 10 | अंक : 200 | लखनऊ, 30 जून, रविवार 2024 | पृष्ठ : 08 | मूल्य : 2.00 रुपए

यूपी में हाईस्कूल और इंटर के टॉपर्स के नाम पर होंगी सड़कें : सीएम योगी

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावियों को सम्मानित करने के दौरान बेटियों की सफलता को रेखांकित कर अभिभावकों को बड़ा संदेश भी दिया। कहा, हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की मेरिट में जगह बनाने वाले कुल 170 मेधावियों में 58 छात्र और 112 छात्राएं हैं। यह सफलता बताती है कि बेटियों ने लंबी छलांग मारी है और उन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा अभिभावक बेटे का ज्यादा ध्यान देते हैं। बेटा-बेटी में कभी फर्क न करें और दोनों का समान रूप से आगे बढ़ाएं। योगी ने 170 मेधावियों को प्रमाणपत्र, मेडल, टैबलेट व एक-एक लाख रुपये का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। योगी ने एक शिक्षक की तरह मेधावियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम



का कोई विकल्प न होने का सिद्धांत भी समझाया। कहा, शॉर्टकट से कोई लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। यह सफलता नई मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगी। सफलता बताती है कि आप सही राह पर चल रहे हैं।

डीबीटी से धनराशि अंतरण प्रक्रिया का शुभारंभ

योगी ने लोकभवन में आयोजित समारोह में इससे पूर्व ड्रेस, जूता-मोजा, स्वेटर, स्टेशनरी व स्कूल बैग खरीद के लिए प्रति छात्र 1200 रुपए की धनराशि अभिभावक के खाते में डीबीटी से अंतरण प्रक्रिया शुभारंभ भी किया। 88 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में 1,056 करोड़ रुपये की धनराशि ट्रांसफर की गई। योगी ने 15 जुलाई तक शत प्रतिशत बच्चों को स्कूल चलो अभियान से जोड़ने व उनके अभिभावकों के खाते में 1200 रुपये की राशि भेजने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा, अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वे मिली धनराशि से बच्चों की ड्रेस, जूता-मोजा व अन्य सामग्री खरीदें और उन्हें स्कूल अवश्य भेजें। स्कूल में एक भी बच्चा नंगे पैर नजर नहीं आना चाहिए। कहा, 2017 से पहले जैसे सरकार अंधेरे में थी, वैसे ही शिक्षा को अंधेरे में धकेलने का काम किया था। कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे। यही सबसे बड़ी सेवा है। श्रीमद्भगवतगीता में तो किसी को शिक्षित करने को सबसे पवित्र कार्य माना गया है। अधिकारियों का आचरण समाज के मार्गदर्शक व शिक्षक के रूप में होना चाहिए। विद्यालय इनोवेशन व रिसर्च के नए सेंटर के रूप में स्थापित हों। बताया कि जल्द 57 नए सीएम कंपोजिट स्कूल भी शुरू होंगे।

मेधावियों के नाम होगी सड़क

मुख्यमंत्री ने कहा कि उप्र माध्यमिक शिक्षा, उप्र माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, काउंसिल फार द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े जिन छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया है, उनके गांव व मोहल्ले में सड़क का नामकरण मेधावी के नाम पर किया जाए।

महाराज भामाशाह का पूरा जीवन त्याग और सत्यनिष्ठा का उदाहरण : अखिलेश यादव

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

लखनऊ, वीर बलिदानी महान राष्ट्रभक्त व्यापारियों के मसीहा महाराज भामाशाह की जयंती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया।

अखिलेश यादव ने कहा है कि भामाशाह का पूरा जीवन त्याग और सत्यनिष्ठा का उदाहरण है। उनका मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था। उन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को अपनी सम्पूर्ण धन सम्पदा अर्पित कर दी थी। इस धनराशि से महाराणा प्रताप ने नया सैन्य बल गठित कर मेवाड़ की रक्षा की। मातभूमि के प्रति अगाध प्रेम और दानवीरता के लिए भामाशाह का नाम इतिहास में अमर है। उनके जीवन से निष्ठा, समर्पण और त्याग की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वैश्य व व्यापारी समाज का उत्पीड़न हो रहा है। आज वैश्य व व्यापारी समाज भाजपा शासन में सबसे ज्यादा पीड़ित है। जीएसटी से बड़े पैमाने पर व्यापार का नुकसान हुआ है। व्यापारी व वैश्य समाज भी अब ये मानता है कि व्यापारी और वैश्य समाज का सम्मान केवल सपा सरकार में ही सम्भव है। अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया कि सपा सरकार बनने पर व्यापारी व वैश्य समाज को उनका खोया हुआ सम्मान मिलेगा। उन्होंने लोकसभा में जीत के लिए बधाई दी और कहा कि हमें भाजपा की साजिशों में नहीं फंसना है। 2027 विधानसभा चुनाव की लड़ाई बड़ी है। इसमें नहीं चूकना है। इस अवसर पर सर्वश्री शिवपाल यादव, बलराम यादव, राजेन्द्र चौधरी, श्याम लाल पाल, लाल बिहारी यादव, आर.के. वर्मा, उदयवीर सिंह, मौलाना नजर मोहम्मद, डॉ0 राजपाल कश्यप, कृष्ण कन्हैया पाल एडवोकेट, सरदार हरदीप सिंह लाखड़ा की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष व प्रवक्ता अभिमन्यु गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय सूद, प्रदेश उपाध्यक्ष वोट सिंह यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय जायसवाल, अंशुल गुप्ता, श्यामकृष्ण गुप्ता, अंकित गुप्ता आदि ने भी अखिलेश यादव के साथ ही भामाशाह के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

मौसम

अधिकतम तापमान 43.c

न्यूनतम तापमान 29.c

बाजार

सोना 7,077/ g

चांदी 96/ g

सेंसेक्स 75,410.39

निफ्टी 22,957.10

संक्षिप्त समाचार

अयोध्या में बारिश के बाद रामपथ पर हुए गड्ढे, ने की बड़ी कार्रवाई

अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन सिर्फ छह महीने पहले ही हुआ था। छह महीने में ही अयोध्या में पहली बार बारिश हुई है, जिसके बाद मंदिर नगरी में बारी जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। इससे अब कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे है। इसके तीव्र और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं।

अयोध्या में नवनिर्मित राम पथ मार्ग है, जो राम मंदिर की ओर जाता है। बारिश के कारण मंदिर नगरी में कई जगह पर धंस गया है। अधिकारियों ने बताया कि 14 किलोमीटर लंबे मार्ग पर गड्ढे होने के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए तुरंत सड़क की मरम्मत करवा दी। अधिकारियों ने बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने लापरवाही बरतने के आरोप में पीडब्ल्यूडी के तीन इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि जलभराव की सूचना मिलने के तुरंत बाद बारिश के पानी को निकालने के प्रयास शुरू कर दिए गए थे। पिछले शनिवार आधी रात को भारी बारिश के बाद मंदिर में रिसाव की भी खबर आई थी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने सोमवार को दावा किया था कि मंदिर की छत से टपकने वाला बारिश का पानी परिसर के अंदर जमा हो रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मंदिर परिसर से बारिश के पानी को बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि, रिसाव के दावों को खारिज करते हुए मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि छत से पानी की एक भी बूंद नहीं टपकी और न ही कहीं से गर्भगृह या 'गर्भगृह' में पानी घुसा है। उन्होंने यह भी कहा कि बारिश के पानी की निकासी के लिए मंदिर में उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है।

पूर्वी लद्दाख में नदी पार करने के दौरान सेना के पांच जवानों की मौत : राजनाथ सिंह

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को बताया कि पूर्वी लद्दाख में एक सीमावर्ती स्थान पर एक टैंक को नदी पार कराने की कोशिश के दौरान हुई दुर्घटना में सेना के पांच जवानों की मौत हो गई। सिंह ने इस हादसे के बाद, सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिये शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, लद्दाख में एक टैंक को नदी पार कराते समय हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में भारतीय सेना के हमारे पांच बहादुर जवानों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कहा, हम अपने वीर जवानों द्वारा देश के लिए की गई अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। सिंह ने कहा, दुख की इस घड़ी में राष्ट्र उनके साथ खड़ा है।

भारत ने दूसरी बार जीता टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब

● साउथ अफ्रीकी टीम के अरमान रह गए अधूरे

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली, भारत ने दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। बारबाडोस के केनसिंग्टन ओवल में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। जिसके जवाब में अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही अफ्रीकी टीम 169 रन ही बना पाई और खिताब से दूर हो गई। भारत दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना है। भारत ने पहली बार साल 2007 में ये ट्रॉफी जीती थी। इसी के साथ भारत तीसरी टीम बन गई है जिसने टी20 का खिताब दूसरी बार जीता है। उससे पहले इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के काम कर चुके हैं। भारत ने साल 2013 से चले आ रहे आईसीसी ट्रॉफी के सूखे और 17 साल से चले आ रहे टी20 वर्ल्ड कप के सूखे को खत्म कर दिया है।

डीकॉक और क्लासेन की बेहतरीन पारी

स्टब्स के आउट होने के बाद डिकॉक ने अपनी तूफानी पारी को जारी रखा और लगातार रन बनाते रहे। हेनरिक क्लासेन ने अपने चिर-परिचित अंदाज में लंबे शॉट्स लगाने शुरू किए। डिकॉक खतरनाक होते दिख रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाया, जिसके बाद अर्शदीप सिंह ने 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर डिकॉक को डीप स्क्वायर लेग पर कुलदीप यादव को कैच दे बैठे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 31 गेंदों पर चार चौके और एक छक्के की मदद से 39 रन बना।

इसके बाद डेविड मिलर अभी बचे थे और भारत के लिए खतरा भी थे लेकिन बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए सूर्यकुमार यादव ने आखिरी ओर की गेंद पर मिलर का हैरतअंगेज कैच लपकते हुए मैच में भारत की जीत लगभग पक्की कर दी। हार्दिक पंड्या ने आखिरी ओवर में बाकी रन बचा लिए और भारत को जीत दिलाई।

विराट कोहली की शानदार पारी

वहीं भारत की तरफ से जीत का हीरो और कोई नहीं बल्कि विराट कोहली रहे। कोहली पूरे टूनार्मेंट में फेल रहे लेकिन फाइनल में उन्होंने 76 रन की अहम पारी खेली।

आप ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का किया विरोध

भूख हड़ताल के कुछ दिनों बाद आतिशी भी हुई शामिल

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने अब खत्म हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ शनिवार को भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों, पार्षदों और कार्यकताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच बीजेपी कार्यालय तक मार्च किया। मंत्री आतिशी सहित कई नेता मौजूद थे, जिन्हें हाल ही में भूख हड़ताल के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें उन्होंने शहर में जल संकट के बीच हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पानी जारी करने की मांग की थी।

आप कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था, जिस पर हिंदी में लिखा था, 'ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बंद करें।' विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकताओं द्वारा 'केजरीवाल को रिहा करो' जैसे अन्य बैनर भी प्रदर्शित किए गए। इससे पहले, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा कार्यालय पर किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है। अधिकारी ने कहा कि बैरिकेड लगा दिए गए हैं और अर्धसैनिक बल के जवानों को घटनास्थल पर तैनात किया गया है।

अधिकारी ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा सकता है क्योंकि डीडीयू मार्ग पर निषेधाज्ञा लागू की गई है, जहां भाजपा कार्यालय स्थित है। विरोध तब हुआ जब सीबीआई आज केजरीवाल को अदालत में पेश करने वाली है क्योंकि उनकी तीन दिन की हिरासत समाप्त हो रही है। शराब नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा बुधवार को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल शाम 7 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में केजरीवाल पहले से ही तिहाड़ जेल में हैं।

पूर्व उपराष्ट्रपति नायडू पर लिखी गई तीन पुस्तकों का विमोचन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन पर उन पर लिखी गई तीन पुस्तकों का विमोचन करेंगे। एक बयान में कहा गया कि यह कार्यक्रम हैदराबाद के गाचीबोवली स्थित अन्वया कन्वेंशन सेंटर में होगा और मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुस्तकों का विमोचन करेंगे।

प्रधानमंत्री जिन पुस्तकों का विमोचन करेंगे उनमें पूर्व उपराष्ट्रपति की जीवनी वेंकैया नायडू - लाइफ इन सर्विस शामिल है, जिसे द हिंदू के हैदराबाद संस्करण के पूर्व स्थानीय संपादक एस नागेश कुमार ने लिखा है। इसके अलावा सेलिब्रेटिंग भारत - द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज थर्टीथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके पूर्व सचिव आई वी सुब्बा राव द्वारा संकलित एक फोटो संग्रह है। बयान में कहा गया है कि तीसरी पुस्तक तेलुगु में लिखी एक सचित्र जीवनी है जिसका शीर्षक है- महानेता - लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू। इसे संजय किशोर ने लिखा है।

झारखंड से बीजेपी का होगा सफाया

हमारे खिलाफ रची गई साजिश : हेमंत सोरेन

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर जेल से रिहा होने के एक दिन बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना की और आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी का सफाया करने की कसम खाई। रांची में झामुमो कार्यकताओं के साथ बैठक में हेमंत सोरेन ने कहा, भाजपा को भारत के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने में विशेषज्ञता हासिल है; लोगों ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों में सबक सिखाया। वह झारखंड में विधानसभा चुनाव जीतने का दिवास्वप्न देख रही है।

हेमंत सोरेन ने उत्साहित पार्टी कार्यकताओं से कहा कि हम उन लोगों को करारा जवाब देंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिश रची। भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का समय आ गया है; झारखंड से भगवा पार्टी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि राज्य में (विधानसभा) चुनाव पहले हो सकते हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। झारखंड हाई कोर्ट के जमानत आदेश के बाद हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा जेल से रिहा कर दिया गया।

सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित भूमि घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत जनवरी में गिरफ्तार किया था। जांच आधिकारिक अभिलेखों की जालसाजी के माध्यम से कथित तौर पर पर्याप्त आय अर्जित करने से संबंधित है, जिसमें करोड़ों रुपये की जमीन के बड़े पार्सल हासिल करने के लिए नकली विक्रेताओं और खरीदारों को शामिल किया गया है। अदालत ने माना है कि, प्रथम दृष्टया, वह अपराध का दोषी नहीं है और याचिकाकर्ता द्वारा जमानत पर रहते हुए अपराध करने की कोई संभावना नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी पर सोनिया गांधी ने लगाया संविधान पर हमला करने का आरोप

● आपातकाल संबंधी टिप्पणी पर किया पलटवार

एजेंसी / अमन लेखनी समाचार

नई दिल्ली, सोनिया गांधी ने आपातकाल संबंधी टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री पर संविधान पर हमला का आरोप लगाया। संसद के पहले सत्र में उपसभापति पद और एनईईटी मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बीच कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टकराव को महत्व देते हैं, भले ही वे आम सहमति के मूल्य का उपदेश देते हों। द हिंदू में एक संपादकीय में सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी लोकसभा चुनाव के नतीजों से उबर नहीं पाए हैं, जिसमें एनडीए कमजोर जनादेश के साथ सत्ता में वापस आया है। राज्यसभा सांसद ने कहा, प्रधानमंत्री ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे कुछ बदला ही नहीं है। वे आम सहमति के मूल्य का उपदेश देते हैं, लेकिन टकराव को महत्व देते हैं। उन्होंने आगे कहा, दुखद रूप से 18वीं लोकसभा के पहले कुछ दिन उत्साहजनक नहीं रहे। कोई भी उम्मीद कि हम कोई बदलाव देखेंगे, धराशायी हो गई है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष ने कहा कि परंपरा के अनुसार लोकसभा में उपसभापति का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह से उचित अनुरोध उस शासन द्वारा अस्वीकार्य पाया गया, जिसने 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष के संवैधानिक पद को नहीं भरा था। आपातकाल को उठाकर कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाली भाजपा के साथ, सोनिया गांधी ने कहा कि संविधान पर हमले से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है। गांधी ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि इसे अध्यक्ष द्वारा भी उठाया गया, जिनकी स्थिति सख्त निष्पक्षता के अलावा किसी भी सार्वजनिक राजनीतिक रुख के साथ असंगत है। उन्होंने कहा, यह इतिहास का एक तथ्य है कि मार्च 1977 में हमारे देश के लोगों ने आपातकाल पर एक स्पष्ट फैसला दिया था, जिसे बिना किसी हिचकिचाहट और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। तीन साल से भी कम समय बाद, मार्च 1977 में पराजित हुई पार्टी फिर से सत्ता में लौट आई, और मोदी और उनकी पार्टी को कभी भी बहुमत नहीं मिला, यह भी उस इतिहास का एक हिस्सा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए आपातकाल का भी जिक्र किया, जहां उन्होंने इसे सबसे काला अध्याय और संविधान पर सीधा हमला कहा।

नीट पेपर लीक मामला

नीट पेपर लीक पर नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इस घोटाले ने हमारे लाखों युवाओं के जीवन पर कहर बरपाया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, वे लीक पर स्पष्ट रूप से चुप हैं, जिसने देश भर में इतने सारे परिवारों को तबाह कर दिया है।

संक्षेप

कार व बाइक जलाने वाले अराजकत्व पर मुकदमा दर्ज

अमन लेखनी समाचार

मोहनलालगंज।मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के गोपालखेड़ा गांव निवासी हरभजन के घर के बाहर खड़ी बाइक व स्कूटी में सदिंग्ध परिस्थितियों में आग लगने से जल गयी थी,पीड़ित ने पुरानी रंजिश में गांव में रहने वाले विपक्षी रईस के पुत्र पर आग लगाने का आरोप लगाते हुये पुलिस से लिखित शिकायत करते हुये कार्यवाही की मांग की थी।इंस्पेक्टर आलोक राव ने बताया पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के विरूद्व मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है।

किसान के घर धावा बोलकर बैखोफ चोरों ने जेवरात व नगदी उड़ाई

अमन लेखनी समाचार

नगराम। इस्माईलनगर गांव निवासी अकुंश कुमार ने बताया उसके पिता बंशलाल कैंसर की गम्भीर बीमारी से ग्रसित है ओर लोहिया अस्पताल में इलाज के लिये भर्ती है,बीते शुक्रवार को पूरा परिवार अस्पताल में थी घर पर पत्नी प्रियंका व मां दुर्गावती थी देर रात छत में रोशनदान को तोड़कर घर में घुसे बैखौफ चोर अलमारी व बक्सो के ताले तोड़कर उसमें रखे लाखो कीमती के सोने-चांदी के जेवरात व 6800रुपए चोरी कर भाग निकले।शनिवार की सुबह सोकर उठी मां ने कमरे में सारा सामान बिखरा व अलमारी व बक्से खुले देखे तो चोरी की घटना का पता चला।जिसके बाद चोरी की घटना की सूचना नगराम पुलिस को दी,तब जाकर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल की।थाना प्रभारी विवेक कुमार चौधरी ने बताया पीड़ित घर मालिक की तहरीर पर अज्ञात चोरो पर मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गयी है।

दो पक्षो में जमकर मारपीट,आधा दर्जन घायल

अमन लेखनी समाचार

मोहनलालगंज।मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के केसरीखेड़ा गांव निवासी राकेश के हरी सब्जी बोये खेत में रामप्रताप के जानवर चरने चले गये जिस पर राकेश ने रामप्रताप से विरोध जताया तो कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया जिसके बाद दोनो पक्षो के आधा दर्जन लोग लाठी-डंडो से लैस होकर आमने-सामने आ गये ओर जमकर मारपीट हुयी।जिसमें दोनो पक्षो के आधा दर्जन लोग घायल हो गये।मारपीट में एक पक्ष से राकेश व उसकी पत्नी व दूसरे पक्ष से रामप्रताप व उसकी पत्नी सुशीला व बेटिया प्रिया व प्रियंका घायल हो गयी। दोनो पक्षो के पीड़ितो की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट व जान से मारने की धमकी देने की क्रास मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नाबालिग लड़की को अगवा कर-के बंधक बनाकर किया दुष्कर्म

●हाथ पैर बांधकर और शोर मचाने में मुंह दबा कर बनाया हवस का शिकार

अमन लेखनी समाचार

सरोजनीनगर, लखनऊ। बंथरा इलाके में शुक्रवार रात एक किशोरी को अगवा करके बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी होने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जबकि पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। बंथरा क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली कक्षा 5 की 13 वर्षीया छात्रा का पिता घर से कुछ दूर पानी की टंकी पर प्राइवेट गार्ड की नौकरी करता है। छात्रा की माँ के मुताबिक शुक्रवार रात उसका पति ड्यूटी पर था। तभी किसी काम के लिए रात करीब 9 बजे छात्रा अपने पिता को आवाज देने घर से बाहर निकली। लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी देर बाद तक वापस न लौटने पर उसके परिजनों ने छात्रा के मोबाइल पर फोन किया। लेकिन उसका फोन नहीं मिला। तब परिजन उसकी खोजबीन के लिए निकले। लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। पीड़िता की मां का कहना है कि चूंकि सादुल्ला नगर गांव में रहने वाला मोहित अक्सर उसके मोबाइल पर फोन करता था। जब छात्रा फोन रिसीव करती तो वह अश्लील बातें करता। लेकिन जब उसकी मां फोन रिसीव करती तो वह फोन काट देता था। इस पर छात्रा के परिजनों को संदेह हुआ और वह मोहित के घर पहुंच गये। मोहित के बारे में उन्होंने पूछा तो उसके परिजनों ने कुछ भी बताने की बजाय बहाना बना दिया। इसी बीच अपनी छत पर मौजूद मोहित के बगल में रहने वाले युवक ने मोहित और प्रियांशु को अपनी छत से दूसरी छत पर किशोरी को ले जाते देखा तो उसने इसकी जानकारी छात्रा के परिजनों को दी। तब पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। रात करीब 11:15 बजे सूचना के बाद पहुंची पुलिस और गांव के कुछ लोग मोहित के घर के अंदर गए तो किशोरी कमरे के अंदर बंधक बनी पड़ी मिली। उसके हाथ - पैर कपड़े से बंधे हुए थे और मोहित उसी कमरे में मौजूद था। लेकिन बाद में वह मौका पाते ही वहां से भाग निकला। बाद में किशोरी ने बताया कि जब वह अपने घर से बाहर निकल कर पिता को आवाज दे रही थी। तभी वहां पहले से मौजूद मोहित और उसका साथी प्रियांशु उर्फ बड़क्का अचानक उसके पास पहुंचे। दोनों ने किशोरी का मुंह दबा लिया और सूनसान रास्ते से उसे घसीटते हुए मोहित के घर ले गए। वहां मोहित ने किशोरी का मोबाइल छीन कर तालाब में फेंक दिया। बाद में मोहित ने अपने घर के कमरे में बंधक बनाकर उसे जबरन अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता का आरोप है कि इससे पहले जब उसने शोर मचाने की कोशिश की तो मोहित ने उसका मुंह दबा दिया और मोहित की मां-बाप व उसके भाई ने मिलकर मोहित से यह कहते हुए किशोरी को जबरन कमरे के अंदर धकेल कर बाहर से कमरा बंद कर दिया कि आज मौका मिला है इसे छोड़ना नहीं। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित किशोरी की मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जबकि पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया। बंथरा थाना प्रभारी का कहना है कि किशोरी के परिजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है।

केनरा बैंक की नई शाखा का उद्घाटन

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ । आज केनरा बैंक की नई शाखा लुलु माल के निकट सुशांत गोल्फ सिटी मे खोली गयी। नई शाखा का उदघाटन बैंक के अंचल प्रमुख एवं महाप्रबंधक रंजीव कुमार ने किया। इस अवसर पर अंचल कार्यालय के उपमहाप्रबंधक संजय कुमार और क्षेत्रीय कार्यालय के उपमहाप्रबंधक राजेश के एस, सहायक महाप्रबंधक संजय कुमार त्रिवेदी तथा शाखा प्रबंधक शिवम शुक्ला उपस्थित रहे। लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ प्रथम की 57वी शाखा है और अंचल की 492 वी शाखा है।

ऋषि का सद्ज्ञान व्यक्ति को सन्मार्ग पर चलाता है - उमानंद शर्मा

गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर, लखनऊ के विचार क्रान्ति ज्ञान यज्ञ अभियान के अन्तर्गत वैद आई.एस.एस. सेक्टर-सी अलीगंज लखनऊ के केन्द्रीय पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित सम्पूर्ण 79 खण्डों का 412वाँ ऋषि वांड़मय की स्थापना कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। उपरोक्त साहित्य गायत्री परिवार की सक्रीय कार्यकर्त्रा हंस जी ने अपने पूर्वजों की स्मृति में भेंट किया तथा सभी छात्र-छात्राओं एवं संकाय सदस्यों को (अंग्रेजी एवं हिन्दी) अखण्ड ज्योति पत्रिका भेंट की। इस अवसर पर वाङ्मय स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा ने कहा कि ऋषि का सद्ज्ञान व्यक्ति को सन्मार्ग पर चलाता है। वी0के0 श्रीवास्तव, पुनीत पाण्डेय ने भी अपने विचार व्यक्त किये। संस्थान के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मुकेश कुमार शुक्ला ने धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त किया। इस अवसर पर उमानंद शर्मा, वी.के. श्रीवास्तव, हंस जी, देवेन्द्र सिंह, एवं संस्थान के निदेशक डॉ. प्रत्यूष त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मुकेश कुमार शुक्ला, डॉ. इशान त्रिपाठी, पुनीत पाण्डेय एवं अधिकारी एवं छात्र-छात्रायें मौजूद थे।

आम उत्पादकों को ऋण देगा भारतीय स्टेट बैंक, मैंगो मीट में साझा की जानकारी

बागवानों के साथ सहयोगी के रूप में काम करेगा बैंक

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। शनिवार को मलिहाबाद क्षेत्र के महमूद नगर में स्थित देवम लॉन में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मैंगो मीट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें क्षेत्र के किसान व संभ्रांत लोग शामिल हुए। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कृषि से जुड़ी वित्तीय योजनाओं में बेहतर लोन व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मैंगो मीट कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आम के लिए वित्त के नवीन पैमानों के सबंध में जानकारी प्रदान करते हुए एसबीआई बैंक अब तक किसानों को क्रेडिट कार्ड और अन्य तरह से लोन देता था, लेकिन बागवानों को आम की फसल पर कोई लोन नहीं देता था अब बागवानों को भी आम की फसल पर लोन मिलेगा।

शाखा प्रबंधक मृत्युंजय दुबे ने बताया इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित है। मलिहाबाद क्षेत्र में बागवानों की आर्थिक सबलता आमों पर निर्भर है और सीजन में बागवानों को आम की देखरेख में धन की कमी न होने पाए, इसलिए बैंक बागवानों के साथ एक सहयोगी के रूप में काम करेगा। जिसमें बताया गया कि इन दोनों को कृषि उद्यमों और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। जिसमें एग्री एंटरप्राइजेज लोन और एग्री इंफ्रा फंड के तहत आम को देश विदेश में भेजने में आर्थिक सहयोग मिलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसबीआई लखनऊ के उप-महाप्रबंधक धीरज कुमार , मुख्य प्रबंधक उमंग श्रीवास्तव , राजेश पांडेय सहित एसबीआई बैंक कर्मचारी मौजूद रहे।

यूपी में अब खत्म होगा भ्रष्टाचार, एसीओ ने लांच किया आइ-फैक्टस एप

सभी जिलों में हो रहा इंटेलिजेंस यूनिट का गठन

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एसीओ) ने और त्वरित व प्रभावी जांच के लिए आई-फैक्टस (इंटेलीजेंट फाइनेंशियल एनालिटिक क्राइम ट्रैकिंग एंड ट्रेनिंग सिस्टम) एप विकसित किया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने एप का शुभारंभ किया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एसीओ को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में एप को विकसित किया गया है, जिससे एसीओ को अभिसूचना संकलन, फाइनेंशियल एनालिसिस, सीडीआर एनालिसिस, आय से अधिक संपत्ति की गणना, विवेचना, अभियोजन व प्रशिक्षण में मदद मिलेगी। समय की बचत के साथ ही तकनीक के सहयोग से जांच आसान व तेज होगी। डीजीपी का कहना है कि एप जांच की गुणवत्ता सुधारने में भी सहयोगी होगी। शासन ने भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के लिए एसीओ की आठ नई इकाइयों का गठन करने के साथ ही सभी 18 मंडल स्तर पर एसीओ के थाने स्थापित किए गए हैं।

कंट्रोल रूम को यूपी 112 से भी एकीकृत

वर्तमान में एसीओ की 19 इकाईयां क्रियाशील हैं। इसके साथ ही 18 मंडलों पर तथा एसीओ मुख्यालय पर टास्क फोर्स भी क्रियाशील हैं। एसीओ मुख्यालय के कंट्रोल रूम को यूपी 112 से भी एकीकृत कराया गया है। सभी जिलों में एसीओ की इंटेलिजेंस यूनिट का भी गठन कराया जा रहा है। जबकि मुख्यालय स्तर पर तकनीकी यूनिट का गठन किया गया है। एसीओ ने इस वर्ष अब तक भ्रष्टाचार के मामलों में 107 लोकसेवकों के विरुद्ध कानूनी शिकंजा कसा है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 62 तथा वर्ष 2022 में 32 लोकसेवकों को भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़ा गया था। एसीओ ने इसे वर्ष 202 जांचों व विवेचनाओं का निस्तारण किया है।

दहेज के लिये ससुरालीजनो ने पार की क्रूरता की हदे,पति ने आप्रकृतिक मैथुन व देवर ने किया रेप

अमन लेखनी समाचार

मोहनलालगंज।उन्नाव जनपद के हसनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस आयुक्त को लिखित शिकायती पत्र देते हुये बताया था 23नवम्बर2023 को उसका विवाह मोहनलालगंज के जैतीखेड़ा मजरा मरूई गांव में रहने वाले राकेश यादव के बेटे मोहित यादव से हुआ था,शादी के कुछ महीनो तक सब ठीक ठाक रहा लेकिन उसके बाद पति समेत ससुरालीजन दहेज में स्कार्पियो की मांग कर उसे आये दिन प्रताड़ित करने लगे ओर सास फूलमती,ननद मोहिनी व देवर शोभित व ससुर राकेश उसके साथ मारपीट करने लगे। 15फरवरी2024 को पति शराब के नशे में धुत होकर घर आये ओर जबरन मुख मैथुन करने का दबाब बनाने लगे जब उसने मना किया तो उसे जमीन पर पटककर जबरन मुझ मैथुन किया।20फरवरी को ससुरालीजन कही बाहर गये थे ओर वो घर पर अकेली थी तभी देवर शोभित उसके कमरे में आ धमका ओर चाकू की नोक पर उसके साथ जबरन रेप किया ओर किसी से भी कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी,किसी तरह हिम्मत जुटाकर घटना के अगले दिन सभी के वापस आने पर उसने पति से पूरी घटना बताई तो वो उल्टा उसपर भड़क गये ओर ससुरालीजनो ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर घर से निकाल दिया जिसके बाद किसी तरह मायके पहुंचकर उसने अपने परिजनो से आपबीती बताई तो उनके पैरो तले जमीन खिसक गयी।पुलिस कमिश्नर ने पीड़िता की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुये मोहनलालगंज पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्यवाही के आदेश दिये।इंस्पेक्टर आलोक राव ने बताया पीड़िता के शिकायती पत्र के आधार पर आरोपी पति,ससुर,सास,देवर व ननद के विरूद्व दहेज प्रताड़ना, रेप, मारपीट,जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य धाराओ में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है।

गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप, मुकदमा दर्ज

अमन लेखनी समाचार

सरोजनीनगर, लखनऊ। सरोजनीनगर के नादरगंज स्थित सिपेट कॉलेज में तकनीकी सहायक पद पर तैनात बस्ती जिले के कितूरी गांव निवासी संदीप शर्मा ने रुद्र तिवारी नामक युवक के खिलाफ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने की सरोजनीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। संदीप शर्मा का कहना है कि वह सिपेट कॉलेज में तकनीकी सहायक पद पर तैनात है। संदीप का आरोप है कि रुद्र तिवारी नामक युवक, जिसका मोबाइल नंबर 6394409590 है, वह आए दिन लगातार गाली गलौज करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसकी इस धमकी से पीड़ित काफी डरा सहमा है। परेशान होकर संदीप ने इसकी लिखित शिकायत सरोजनीनगर थाने में की। सरोजनीनगर पुलिस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी का पता लगा रही है।

फ्लोअप...

नाबालिग बेटी का मां ने मुस्लिम युवक से कराया था बाल विवाह

अमन लेखनी समाचार

मोहनलालगंज। एक गांव में रहने वाली मां ने अपनी नाबालिग हिन्दू बेटी का विवाह घर आने वाले मुस्लिम युवक से करके बेटी को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया,जिस उम्र में बच्चे पढते व खेलते है एक निर्दयी मां ने क्रूरता दिखाते हुये बाल विवाह कर दिया,परिणाम ये हुआ कुछ ही महीं ?नो में गर्भवती हुयी किशोरी की एक सप्ताह पहले नवजात बच्ची को जन्म देने के बाद मौत हो गयी।जिसके बाद युवक व मां ने गुपचुप तरीके से बेटी का अन्तिम संस्कार कर दिया।सगे चाचा राकेश को गर्भवती होने के बाद नाबालिग भतीजी की मौत की खबर लगी तो उसके पैरो तले से जमीन खिसक गयी।जिसके बाद उसने बीते शुक्रवार को एसीपी मोहनलालगंज से शिकायत कर बाल विवाह कराकर भतीजी को मौत के मुंह में धकेलने वाली भाभी व गैर समुदाय के युवक पर कड़ी कार्यवाही की मांग की।जिसके बाद एसीपी राधा रमण सिंह ने मृतका की मां व युवक को नोटिस देकर तलब किया तो मां ने बेटी को बालिग बताते हुये मुस्लिम युवक से मंदिर में शादी कराने की बात बताई लेकिन मृतका बेटी के बालिग होने का कोई प्रमाण पुलिस को नही दे सकी।वही पुलिस ने निजी अस्पताल पहुंचकर वहा के दस्तावेज खगांले जहां पर युवक मुर्तजा अली निवासी खुजौली थाना मोहनलालगंज ने नाबालिग को अपनी पत्नी व उम्र 19वर्ष बताते हुये सानिया नाम से भर्ती कराया था।वही चाचा ने जिस मुस्लिम युवक पर बाल विवाह करने का आरोप लगाया नोटिस देने के बाद भी वो पुलिस के सामने नही आया,उसके परिजनो ने एसीपी आफिस पहुंचकर अपना पक्ष रखा लेकिन नाबालिग से शादी से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज आरोपी युवक के परिजन भी पुलिस को नही दिखा सके।एसीपी राधा रमण सिंह ने बताया मृतका के चाचा की शिकायत के बाद पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है,अभी तक मिले दस्तावेजो से मृतका के बालिग होने का कोई प्रमाण नही मिला है,मां से जन्म सम्बंधित दस्तावेज मंगाये गये है,अगर बालिग होने की पुष्टि जांच में नही होती है तो बाल विवाह कानूनी अपराध है जिसके बाद मां व युवक पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

मृतका की मां व युवक के बीच भी गलत सम्बंध होने की चर्चा....

एक मां इतना निर्दयी कैसे हो सकती है जो 15साल की अपनी नाबालिग बेटी को मुस्लिम युवक से विवाह कराकर उसके साथ भेज देती है ओर छःमाह पहले घर से गयी नाबालिग की गर्भवती होने के बाद नवजात बच्ची को जन्म देने के बाद मौत हो जाती है,शनिवार को एक मां के इस कदर निर्दयी होकर नाबालिग बेटी का बाल विवाह करने की खबर गांव के लोगो को तो लगी तो सभी ने पूरे मामले में दोषी मां व आरोपी युवक पर कड़ी कार्यवाही की मांग की।ग्रामीणो ने दबी जुबान में मृतका की मां व मुस्लिम युवक के बीच भी गलत सम्बंध होने की चर्चा जोरो पर है।ग्रामीणों ने बताया 24जून को नाबालिग की मौत होने के बाद मां ने युवक के साथ मिलकर बाहर ही कही गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया।

चाचा ने कहा विरोध पर भाभी देती थी झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकियां

चाचा राकेश ने बताया दो साल पहले बड़े भाई की मौत के कुछ दिन बाद ही मुस्लिम युवक मुर्तजा भाभी के घर आने जाने लगा,ये बात उन सब को नागवार गुजरती थी तो विरोध भी जताया लेकिन भाभी लड़ने पर उतारू हो जाती थी ओर युवक के घर आने व रोकटोक करने पर झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देती थी,घर आने के दौरान ही मुस्लिम युवक के सम्पर्क में आयी नाबालिग भतीजी गर्भ से हुयी तो भाभी ने छः माह पहले युवक के साथ ही उसे भेज दिया ओर पुछने पर बीच में ना पड़ने की बात कहती थी,बीते सोमवार को नाबालिग भतीजी की मौत की खबर मिली तो उसने हिम्मत जुटाकर मोहनलगंज एसीपी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत कर कार्यवाही की मांग की।

लखनऊ में बिजली विभाग का जबरदस्त एक्शन

डोर टू डोर चेकिंग अभियान ने खोल दी पोल, चोरों पर केस

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। अभियंताओं व प्रवर्तन दल को अभियान चलाकर जिस तरह बिजली चोरी पकड़नी चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। चंद अभियंता ही अपने क्षेत्रों में अभियान चला रहे हैं। शुक्रवार को ठाकुरगंज के अधिशासी अभियंता दीपक कुमार के नेतृत्व में बालागंज, महबूबगंज, दौलतगंज, ठाकुरगंज, गऊघाट, अहमदगंज पजाया में बिजली चेकिंग करते हुए 16 व्यक्तियों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। ये सभी कटिया लगाकर चोरी कर रहे थे। वहीं रेजीडेंसी उपकेंद्र से संबंधित नबीउल्लाह रोड, नई बस्ती में चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान 11 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी गई। मुख्य अभियंता रवि अग्रवाल ने बताया कि डोर टू डोर चेकिंग अभियान में 11 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। 10 लोग मीटर से पहले कट लगाकर बिजली चोरी करते हुए पाए गए। मो. शमशाद के आवास पर चोरी की बिजली से एसी चलते पाए गए। यहां ढाई किलोवाट से अधिक की बिजली चोरी मिली। ये अतिरिक्त केबल डालकर बिजली चोरी करते मिले। सभी के खिलाफ बिजली चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और कनेक्शन भी काट दिए गए हैं।

आज कई क्षेत्रों में रहेगा बिजली संकट

विकास नगर उपकेंद्र से संबंधित क्षेत्र साईं मंदिर, कमला नेहरू नगर व आसपास क्षेत्र में जर्जर केबल बदले जाने के कारण बिजली संकट सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक 29 जून को रहेगा। गोयल उपकेंद्र से संबंधित आरएसआइ कालोनी, मसालची टोला, दाऊद नगर, बड़ा खोदन, सुलतानपुर वृद्धा आश्रम, अलीशा नगर, जानकीपुरम, गुलजार शाह मजार में बिजली संकट सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक शनिवार को रहेगा। वहीं 29 जून को कैंट उपकेंद्र से संबंधित बड़ी लाल कुर्ती, आर्य समाज चौराहे की बिजली सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक नहीं रहेगी।

एक दिवसीय निःशुल्क परामर्श एवं जागरूकता शिविर सम्पन्न

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। विवेकानन्द पॉलीक्लीनिक एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के आयुष विभाग द्वारा एक ही छत के नीचे विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद पंचकर्म, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, यूनानी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, रेकी, प्राणिक हीलिंग) का एक दिवसीय निःशुल्क परामर्श एवं जागरूकता किया गया। लगातार चल रहे नवें आयुष शिविर में रोगियां का निःशुल्क पंजीकरण व परामर्श एवं यथासंभव निःशुल्क दवायें दी गयी। जिसमें जोड़, गठिया, रीढ़ के रोग, त्वचा रोग (सफेद दाग), सोरायसिस, बालों की समस्या, मुहाँसे एवं सौन्दर्य समस्या, गुप्तरोग, मोटापा, डायबिटिज, हृदय रोग, श्वास रोग, पाचन एवं लिवर संबंधित रोगियों ने आयुष विभाग

लखनऊ के बहुचर्चित हत्याकांड में शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को दोषी करार

दो हत्या और एक मौत से मचा था बवाल

अमन लेखनी समाचार

लखनऊ। बहुचर्चित सीएमओ डॉ. विनोद आर्या और डॉ. ब्रह्म प्रसाद सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को अभियुक्त एवं शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को दोषी करार दिया गया। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में विनोद शर्मा और राम कृष्ण वर्मा को बरी कर दिया गया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश सीबीआई कोर्ट अनुरोध मिश्रा ने की। अभियुक्त आनंद प्रकाश तिवारी को सजा सुनाए जाने की तिथि दो जुलाई तक की गई है। विनोद शर्मा और राम कृष्ण वर्मा पर आरोप तय नहीं हो सके इसलिए उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया।

यह है मामला

विकासनगर सेक्टर-14 में बाइक सवार बदमाशों ने 27 अक्टूबर 2010 को परिवार कल्याण विभाग के तत्कालीन सीएमओ विनोद आर्या पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर उनकी हत्या कर दी थी। वह घर से टहलने के लिए निकले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विनोद आर्या को पांच गोलियां मारे जाने की पुष्टि हुई थी। यह मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि विनोद आर्या के स्थान पर नियुक्त हुए नए सीएमओ डॉ. ब्रह्म प्रसाद सिंह की दो अप्रैल 2011 को हत्या कर दी गई थी। छह माह के अंदर दो सीएमओ की हत्या ने तत्कालीन सत्ता को भी हिला कर रख दिया था। जमकर बवाल हुआ था। तत्कालीन बसपा सरकार ने दोनों हत्याकांडों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। कोर्ट में यह भी दलील दी गई कि हत्याकांड एनआरएचएम घोटाले से जुड़ा है। दोनों हत्याकांडों की जांच अभी चल ही रही थी कि इस बीच दो महीने बाद ही डिप्टी सीएमओ योगेंद्र सिंह सचान की जेल के अंदर ही संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। डिप्टी सीएमओ की मौत के मामले में न्यायिक जांच हुई। जांच के बाद कहा गया कि इसे हत्या मानने से इंकार नहीं किया जा सकता। योगेंद्र सचान की पत्नी डॉ. मालती और परिजन उनकी हत्या किए जाने का आज भी आरोप लगा रहे हैं।

एक शूटर मुठभेड़ में मारा गया था

हत्याकांड से जुड़ा एक शूटर मुठभेड़ में मारा गया था, जबकि अंशू दीक्षित पेशी के दौरान भाग गया था।

संक्षेप

जहरीले के काटने से हुई युवक की मौत

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। औरास थाना क्षेत्र के अंतर्गत टिकरा सामद में सूरज कुमार विश्वकर्मा के पुत्र आनन्द विश्वकर्मा को जहरीले सांपने काट लियाथाना क्षेत्र के टिकरा सामद गांव में कॉस्मेटिक की दुकान संचालित है जिसमे वह रोज की भांति सुबह करीब साढ़े आठ बजे के आसपास कास्मेटिक की दुकान खोल कर ग्राहक को सामान देने के लिए दुकान से सामान निकाल रहा था कि उसी समय उसके पैर में किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया जानकारी पर परिजन रहीमाबाद रेलवे स्टेशन के पास ले गए जहां झाड़ फूंक का उपचार किया गया उसके बाद मॉल कस्बा ले गए वहां से भी हालत में सुधार न होने पर परिजन लखनऊ ट्रामा सेन्टर ले गए जहां डॉक्टरों ने ईलाज के दौरान आनंद को मृत घोषित कर दिया व मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

फसल की रखवाली कर रहे किसान पर गिरी आकाशीय बिजली, मौत

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। मौरावां थाना क्षेत्र के शिवदयालखेड़ा गांव में बीती देर रात आकाशीय बिजली की चपेट में आने से फसल की रखवाली कर रहे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पर सुबह परिजनों को होने पर कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।मौरावां थाना क्षेत्र के शिवदयालखेड़ा मजरा चक सरैया गांव के रहने वाले अधेड़ जगदीश बीती रात खेत पर फसल की रखवाली कर रहे थे। रात में अचानक शुरू हुई बारिश के बीच तेजी से चमक के साथ आकाशीय बिजली आम के पेड़ पर गिर गई। उसके नीचे लेटे जगदीश बिजली की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।शनिवार सुबह खेतों पर जा रहे ग्रामीणों ने बुजुर्ग का शव पड़ा देखा तो परिजनों को सूचना दी। परिजन घर से सीधे खेत पर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत सिंह ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने की सूचना पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग को मामले की जानकारी दी गई है।

व्यापारी कल्याण दिवस का किया आयोजन

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। दानवीर भामाशाह के जन्मदिवस के अवसर पर निराला प्रेक्षागृह में विधायक सदर पंकज गुप्ता एवं जिलाधिकारी गौरांग राठी की उपस्थिति में व्यापारी कल्याण दिवस का आयोजन किया गया।इस अवसर पर सर्वोच्च कर (टैक्स) अदा कर जनपद के विकास में योगदान करने वाले करदाता अशोक तिवारी एवं विशाल सिंह को भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया।इसके साथ ही इन्वेस्ट यूपी के इनवेस्टर्स, अन्य कर दाता व व्यापार मण्डल के पदाधिकारी तथा दानवीर भामाशाह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गयी निबन्ध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता एवं गायन प्रतियोगिता के विजेता छात्र-छात्राएं आदि भी सम्मानित किये गये। इसके अतिरिक्त प्रेक्षागृह परिसर में लगायी गयी प्रदर्शनी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन सामान्य को लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर विधायक सदर द्वारा महान शख्सियत भामाशाह के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि पिछले 70 साल में प्रदेश में जितने व्यापारी पंजीकृत थे, वर्तमान सरकार के मात्र पॉच साल के कार्यकाल में दुगुने से अधिक व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत हुए है जिनकी वजह से राजकोष को काफी फायदा पहुॅचा है।मुख्यमंत्री के द्वारा व्यापारियों का सम्मान करने के लिए व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की पहल की गयी है। उन्होने कहा कि वर्तमान सरकार में शान्ति एवं सुरक्षा का ऐसा वातावरण सृजित किया गया है जिससे व्यापारी गण भयमुक्त होकर काम कर पा रहे है तथा सरकार के सहयोग व गुण्डे माफियाओं के खात्मे से व्यापारियों को काफी संबल मिला है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने सभी को दानवीर भामाशाह के जन्मदिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के उद्देश्य से उद्योग बन्धु की तरह ही व्यापार बन्धु का भी गठन किया जायेगा। इससे जिला प्रशासन व्यापारियों से सीधा जुड़ कर जनपद के विकास को और अधिक गति प्रदान कर सकेगा।उन्होने बताया कि दानवीर भामाशाह का जन्म आज के दिन ही 1547 में हुआ था, और इस प्रकार उन्होने महाराणा प्रताप को सहयोग प्रदान किया। मातृभूमि के लिए अगाध प्रेम और दानवीरता के लिए भामाशाह का नाम इतिहास में अमर है। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा, जिला विकास अधिकारी संजय पाण्डेय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संगीता सिंह, जिला पर्यटन सूचना अधिकारी संतोष कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश कुमार मिश्र, उपायुक्त उद्योग सुरेन्द्र कुमार, सहायक आयुक्त जीएसटी श्याम सुन्दर पाठक सहित व्यापार मण्डल के पदाधिकारी गण व अधिकारी एवं कर्मचारी गण आदि उपस्थित रहे।

कस्बे के लाल ने आईआईटी में हासिल की उपाधि

अमन लेखनी समाचार



सफीपुर, उन्नाव। नगर के मेधावी छात्र सत्यम गुप्ता ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि हासिल की।शनिवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में सत्यम कोडॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत किया गया तो नगर व क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ गयी।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नगर के सरांय सूबेदार मोहल्ला निवासी सामाजिक कार्यकर्ता विजय गुप्ता एवं बबिता गुप्ता का पुत्र सत्यम गुप्ता बचपन से ही मेधावी छात्र रहा है। वर्ष 2013 में सरस्वती विद्या मंदिर पूरन नगर उन्नाव से इंटर मिडियट में 90.4 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण कर टापर सूची में अपना नाम दर्ज कराया था।वर्ष 2018 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल तेलांगना से रासायनिक अभियांत्रिकी में बीटेक की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर से कठिन परिश्रम के बाद रासायनिक अभियांत्रिकी में पीएचडी की डिग्री हासिल की है।शनिवार को आईआईटी द्वारा आयोजित 57 वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि यूएसए के ओरेगॉन राज्य विश्व विद्यालय की अध्यक्षा प्रोफेसर जयथी वाई मुर्थी की गरिमामयी उपस्थिति में सत्यम गुप्ता को पीएचडी की उपाधि से अलंकृत किया गया।यह पल देख माता,पिता एवम परिवार सहित शुभचिंतक भी गौरान्वित हो उठे।सत्यम गुप्ता को डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने पर क्षेत्रीय भाजपा विधायक बंबालाल दिवाकर, नगर पंचायत अध्यक्षा गरिमा बाजपेई, उनके पति भाजपा नेता सौरभ बाजपेई, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता किरन, भाजपा नेता हरिशरण लाला, हजरत मख्दूम शाह सफी दरगाह के सज्जादानशीन नवाजिश मोहम्मद फारूखी ,अफजाल अहमद फारूखी, सभासद अभिनव शर्मा , राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह राम नरेश सिंह चौहान, नगर व्यापार मंडल के संजीव गुप्ता (पूर्व सभासद) ,वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर द्विवेदी, कमलेश गुप्ता, आदि ने प्रसन्नता व्यक्त करते सत्यम गुप्ता एवम उनके माता पिता को बधाई देते हुए अपनी अपनी शुभकामनाएं दी है।

धारदार हथियार से वृद्ध की हत्या कर शव बाग में फेंका

अमन लेखनी समाचार

फतेहपुर चौरासी, उन्नाव। थाना क्षेत्र के मन्नानगर का रहने वाला एक वृद्ध की नुकीले हथियार से हत्या कर शव को बाग में फेंक दिया गया।परिजनों ने शव को बाग में देखा तो कोहराम मच गया। घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुची फोरेंसिक टीम ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। शक के आधार पर गांव के एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई थाना क्षेत्र के मन्नानगर गांव के रहने वाले बधाई निषाद 70 वर्ष पुत्र स्व. हिम्मन का गांव के ही बाहर बाग में शनिवार की सुबह शव पड़ा देख ग्रामीणों ने इसकी जानकारी के परिजनों को दी। हत्या की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव देखा तो रो रो कर बेहाल हो गये। उधर घटना की जानकारी की सूचना पर फतेहपुर चौरासी थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश्वर त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे मृतक वृद्ध के कान के पास नुकीले धारदार हथियार से वार करने से हत्या होना पाया गया। उधर फॉरेंसिक, फील्ड यूनिट टीम ने मौके पर घटना को लेकर गहनता से जांच पड़ताल करने के साथ ही कई साथ साक्ष्य एकत्र किए है। पुलिस ने परिजनों से घटना की जानकारी ली। परिजनों ने गांव के ही रहने वाले सुरेश निषाद पुत्र स्व. महेश पर हत्या करने का अंदेशा जताया है। पुलिस ने शक के आधार पर युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रेमचंद ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है दावा किया है, जल्द ही घटना का खुलासा किया जायेगा।

संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता मिला युवक का शव

अमन लेखनी समाचार

सुमेरपुर, उन्नाव। बारा सगवर थाना क्षेत्र के खरझारा गांव में शराब ठेका की रखवाली करने वाले दीपू 30 वर्ष पुत्र गंगाधर का शव रस्सी से लटका मिला। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम भेजा है।

थाना क्षेत्र के गांव खरझारा स्थित शराब के ठेके की रात में रखवाली करने वाले दीपू उर्फ प्रदीप का शव रस्सी से लटका मिला। पिता गंगाधर ठेके में सेल्स मैन है।सुबह वह दुकान पर पहुंचा तो बेटा को रस्सी से लटका देख अवाक रह गया।गंगाधर की चीख को सुनकर आसपास रहने वाले दुकानदार व ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पिता ने बारासगवर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार तिवारी, उप निरीक्षक मानिक राम वर्मा ने रस्सी से शव को उतरवाकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम भेजा है। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार तिवारी ने बताया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। शराब का ठेका जिला पंचायत सदस्य सुधीर शर्मा की पत्नी के नाम है।जिसमें मृतक दीपू के पिता गंगाधर सेल्समैन है। कुछदिन पहले ठेके में चोरी हो जाने के बाद से सेल्समैन गंगाधर का पुत्र दीपू रात में ठेके की रखवाली करता था। ठेके के बगल में एक छप्पर के नीचे तख्त रखा हुआ था। उसी में दीपू रात में सोता था। दिन में उसी छप्पर में गांव के ही निवासी कमलेश अंडे की दुकान चलाते है। अंडे की दुकान बंद हो जाने के बाद रात में दीपू उसी में सोता था। दीपू ने छप्पर में लगे बांस में रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक अविवाहित था। स्थानीय लोगों का कहना था कि जिस तरह दीपू का शव जमीन में पूरी तरह से रखा हुआ था उससे दीपू की हत्या की आशंका है। मृतक चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था। मृतक के भाई विवाहित सुशील, अविवाहित सुनील, अनिल व एक अविवाहित बहन अंजली है। घटना के बाद घर में मौजूद मां तुलसा सहित पूरे परिवार में कोहराम मच गया।

बिना परमिशन के ठेकेदारों ने कर डाला अवैध खनन

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण काम तेजी से चल रहा है।ऐसे में कई जगहों से मिट्टी की खोदाई कर खाली अब जगहों पर भरपाई कर रहे हैं। विकास खंड पुरवा में ठेकेदारों ने तालाबों का बिना परमिशन अवैध खनन कर डाला है। इस बात का ग्रामीणों ने विरोध किया तो ठेकेदारों ने उनकी नहीं सुनी और धमकाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बीघापुर तहसील क्षेत्र के विकास खंड पुरवा के गांव मुरैता प्राचीन के किसान गुड्डू द्विवेदी, लवकुश, मनमोहन, दिनेश साहू ने तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि हमारे गांव के ग्राम प्रधान ने बिना कोई खुली बैठक कराए ग्राम सभा के नाला से बिना किसी अनुमति के पोकलैंड मशीन से गंगा एक्सप्रेस-वे को करीब 7-8 फीट गहराई तक अवैध मिट्टी खनन करा दिया है।क्षेत्रीय लेखपाल और अन्य विभागीय अधिकारियों को फोन से जानकारी दी गई। काफी जद्दोजहद के बाद नाला से मिट्टी खनन कार्य बन्द कराया गया। इसके पहले नाला से करीब 50 से 60 मीटर मिट्टी खनन का कार्य कराया जा चुका था, जो कि गंगा एक्सप्रेस-वे में मिट्टी गई है। ग्रामीणों ने कहा कि पास में ही कम्पोजिट विद्यालय है, जिसके क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। इससे पहले पूर्व ग्राम प्रधान ने गांव के 6 तालाबों से गंगा एक्सप्रेस-वे को मिट्टी खनन कराया जा चुका है, जिसकी गहराई करीब 15 से 18 फीट है। नाला और तालाब के खोदे जाने से आने-जाने वाले राहगीरों और ग्रामीणों को भी किसी अनहोनी का खतरा बना हुआ है।

जनपद में कार्यकाल पूरा कर चुके पुलिस कर्मियों का किया जायेगा तबादला

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। लोकसभा चुनाव समाप्त हान क बाद तबादला नाति का लेकर पुलिस महमके में तैयारियां शुरू कर दी गई। आईजी स्थापना के निदेर्शों का पालन करते हुए आईजी रेंज लखनऊ ने जिले में तैनात ऐसे सबइंस्पेक्टर, आरक्षी, मुख्य आरक्षी का तबादला किया जो एक जिले में कार्यकाल का समय पूरा कर चुके हैं। तबादले की सूची में उन्नाव से 69 पुलिसकर्मी शामिल है। जिन्हें गैर जनपद भेजने के साथ ही आदेश का पालन करने को कहा है।आईजी रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार ने उन्नाव जिले में तैनात उननिरीक्षकों को गैर जनपद तबादला किया है। ये वह उपनिरीक्षक है, जो पूर्व मे चुनाव कराने के साथ ही एक जनपद में समय पूरा कर चुके हैं। तबादला नीति की गाइडलाइन के अनुसार तबादला किया है।तबादले की सूची में उन्नाव में तैनात बारागवर एसओ अखिलेश तिवारी, नसीमुद्दीन, संतोष कुमार राय, वीरेन्द्र कुमार मिश्रा, राजीव कुमार चौहान, पारसनाथ पाण्डेय, अनिल कुमार मिश्रा, इन्द्र नारायण शुक्ला, असलम खां, वीरेंद्र कुमार सरोज, राजीव कुमार, अबू मोहम्मद कासिम को सीतापुर भेजा गया है। दरोगा प्रवीण पुंज, रामबीर सिंह, इन्द्रपाल, तमीजुद्दीन, श्रीश चन्द्र, मोहन सिंह, फूल चन्द्र, नरेश कुमार यादव, जन्मेद, स्वेदश कुमार, दीपक कुमार, दीप सिंह, भगत सिंह, आन्नद कुमार, कृष्ण अवतार, अब्दुल नसीम को रायबरेली भेजा गया है।जयनारायण मिश्रा, इरफान अहमद को हरदोई भेजा गया है वहीं गोपाल गोविंद, कृष्ण स्वरुप दुबे, सर्वेश चन्द्र, रजनेश कुमार यादव, मनोज कुमार, चरण सिंह, राजेश कुमार यादव, प्रेम नाराण सरोज, बृजमोहन बनमाली, अखिलेश कुमार मिश्रा को खीरी भेजा गया है।उन्नाव में अपना कार्यकाल पूर कर चुके मुख्य आरक्षी नीलम, शबाना बानो, पंकज कुमार, कमल जीत सिंह को खीरी भेजा गया है। अश्वनी कौल, राम नरेश, अंजुल कुमार, नवीन चन्द्र, उपासना यादव, शशांक कुमार कनौजिया, संतोष कुमार, अश्वनी कुमार राजवंशी, राकेश कुमार को रायबरेली भेजा गया है। बृजेन्द्र कुमार, पुष्पेन्द्र सिंह, सर्वेश कुमार, राजेश कुमार, संजय कुमार शर्मा, जगनारायण सिंह यादव, पवन कुमार, राज, मोहम्मद असलम को हरदोई भेजा गया है।

मनरेगा में जेसीबी से होती खुदाई स्थानीय श्रमिक काम को तरसते

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। जिले की विकास खंड औरास के ग्राम मवई का बताया जा रहा है जहां एक ओर सरकार श्रमिको को उनके गांव में ही रोजगार मुहैया कराने का दावा करती है लेकिन यहां उसका उलटा होता नजर आ रहा है स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मनरेगा के तहत गावों में श्रमिको को रोजगार दिया जाना चाहिए लेकिन खाउ कमाऊ नीति के आगे सब बेबस है वही प्राप्त जानकारी के अनुसार औरास विकास खंड के अंतर्गत मवई गांव के गुरेला तालाब में श्रमिको से काम न करा जेसीबी से कार्य होता नजर आ रहा है वही इस संबंध में खण्ड विकास अधिकारी औरास दीप शिखा से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा वही डीसी मनरेगा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है टीम गठित कर जांच कराई जाएगी उपरोक्त मामले में मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि संबंधित मामले में जांच करा संबंधित पर कार्यवाही अमल में लाई

जाएगी वही उपरोक्त मामले में तेजतर्रार जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है संबंधित को अवगत करा जांच कराई जाएगी।

मौसम ने बदली करवट, गर्मी से मिली राहत

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। मौसम के करवट बदलने से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। जिले के कई क्षेत्रों में सुबह झमाझम बारिश के बाद बदरा बरसे। इससे तेज धूप से तो छुटकारा मिला, लेकिन बारिश रुकने पर उमस बढ़ने की उम्मीद भी है। मौसम सुहावना हुआ तो लोग घरों से बाहर निकले। रात से बदले मौसम के बाद से शुरू हुई बारिश के मौसम जानकारों का कहना है कि अब पूरे सप्ताह यह सिलसिला जारी रहने का अनुमान है।उन्नाव में पिछले कई दिनों से बादलों का उमड़ना घुमड़ना भी जारी रहा। उमड़ते बादलों की वजह से तपन तो नही रही, मगर उमस ने तंग रखा। बीते दिन धूप छाव का सिलसिला शुरू जो शाम तक न थमा। इसके बाद तेज हवाओं के साथ आसमान बादल से घिरे तो सुबह झमाझम बारिश शुरू हुई। बादलों की कड़कड़ाहट के साथ लगातार बरसात जारी रही।नवई, हसनगंज, पुरवा, हिलौली, मौरावां, शहर, शुक्लागंज, मगरवारा, नेहरुबाग, सहजनी आदि क्षेत्रों में जहां काले बादल छाए। वहीं, अन्य स्थानों पर कई बार बरसात ने राहत दी। मौसम में आए इस बदलाव से भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को काफी राहत मिली। उन्नाव में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है।पिछले दिनों तापमान 41 डिग्री के करीब था। वह इस सप्ताह 28 डिग्री के करीब दर्ज हुआ। न्यूनतम पारा कम न होने की वजह से आद्रता का ग्राफ बढ़ता गया। बीते दिन बुधवार को अधिकतम तापमान 33 तो न्यूनतम 28 डिग्री रहा।पहली बारिश में जलभराव से शहर लबालब भर गया। शहर के कई प्रमुख स्थानों पर जलभराव की समस्या से आमजन के अलावा लोग भी परेशान होते दिखे। मिश्रा कालोनी, एबी नगर, तालिब साराय व प्रदर्शनी नगर के आलवा बड़ा चौराहा की कई सड़क कीचड़ से लबालब भरी तो नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर बाहर आ गया।बीड़ी मार्केट में जलजमाव होने से व्यापारी परेशान दिखे। यहां के व्यापारी बताते है कि अताउल्लाह नाले को गई मार्किट की नाली कई जगह से ब्लॉक है। इसकी शिकायत पालिका से की है।

अनियंत्रित रोडवेज बस ने ऑटो में मारी टक्कर, चार की मौत, एक घायल

अमन लेखनी समाचार

बांगरमऊ, उन्नाव। कोतवाली क्षेत्र के हरदोई उन्नाव मार्ग पर कस्बा गंजमुरादाबाद के निकट हरदोई की ओर से आ रही रोडवेजने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। घटना में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। चालक सहित तीन सवारियां घायल हो गई। जिन्हें बांगरमऊ सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आसपास के लोगों ने रोडवेज बस को पकड़कर पुलिस को सौप दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना पर पहुचें सीओ एसडीएम ने घटना की जानकारी ली।

बांगरमऊ से शनिवार दोपहर डग्गामार ऑटो 5 सवारियां बैठकर मल्लावां की ओर जा रहा था। तभी हरदोई उन्नाव मार्ग पर कस्बा गंजमुरादाबाद मरी कंपनी मोड़ पर हरदोई की ओर से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि घटना में ऑटो के परखच्चे उड़ गये। राहगीरों की सूचना पर पहुँची पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को बांगरमऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। घटना मे हरदोई जनपद के थाना मल्लावां क्षेत्र के गंज जलालाबाद के रहने वाले सुनील कुमार (32) पुत्र गंजू, श्री कृष्ण पुत्र गुलाब निवासी पंपापुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव, लक्ष्मण पुत्र राम अवतार निवासी हजरतपुर थाना मल्लावां जनपद हरदोई की मौके पर ही मौत हो गई। बांगरमऊ थाना क्षेत्र के निवासी मुन्नी मियां तलैया के रहने वाले बबलू पुत्र निहाली, ऑटो चालक रामचंद्र निवासी मल्लापुर थाना बांगरमऊ घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए बांगरमऊ सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है जिला अस्पताल पहुंचते ही रामचंद्र ने भी दम तोड दिया मौके पर बांगरमऊ सीओ अरविंद चौरसिया, कोतवाल राजकुमार, एसडीएम नम्रता सिंह पहुच जांच पड़ताल की है।

जल निकासी न होने से मार्ग पर होता रहता है जल भराव

अमन लेखनी समाचार

उन्नाव। नगर पालिका के वार्ड-11 कृष्णा नगर मोहल्ले में जल निकासी न होने के कारण कई गलियों में बारिश के बिना ही जलभराव रहता है। दो दिन पहले हुई बारिश से एक गली में कई घरों के सामने जलभराव हो गया। जिससे निकलना मुश्किल हो गया।इससे परेशान क्षेत्रीय लोगों ने पालिका में जमकर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष और ईओ मौजूद नहीं थे। जिससे काफी देर तक हंगामा होता रहा। वहीं पालिका का दावा है कि गली ऊंची करके जल्द बनवाई जायेगी।कृष्णा नगर की कई गलियों में जलभराव है। कई दिनों से घरों के सामने गंदा पानी भरा होने के कारण लोग निकल नहीं पा रहे हैं। जलभराव से निजात पाने के लिये जिलाधिकारी से लेकर शासन प्रशासन तक कई बार गुहार लगाई गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। घरों के सामने गंदा पानी भरा होने से कार्ड जम गई है। जिससे फिसल कर कई लोगों के हाथ पांव टूट गये हैं।सुबह महावीर, मनोज, किरण, जयदेवी, शिवानी, रामरती, माया, विमला, ज्योति, वीरेन्द्र कश्यप, हरी, राजकुमार, संजय, दीपू सिंह, अरूण सिंह, पुत्तीलाल वर्मा आदि दर्जनों लोग पालिका पहुंचे। अध्यक्ष ईओ के न मिलने पर जमकर हंगामा काटा और मुदार्बाद के नारे लगाये। सभासद अखिलेश निषाद ने बताया कि गली का टेंडर को गया है, जल्द बनेगी।इसी गली में रहने वाले सोनू राजपूत ने बताया कि पानी भरा होने से गंदगी से काई जम गई है। उससे फिसल कर गिर गये। जिससे उनका पैर टूट गया। ऐसे ही तमाम लोग इस गली से रोजाना आवागमन करते हैं और जल भराव होने के चलते गिरकर घायल हो रहे हैं।

मिर्जापुर में बाढ़ से निपटने की तैयारियां शुरू

- डीएम ने बाढ़ राहत की तैयारियों की समीक्षा की, दिए आवश्यक निर्देश

अमन लेखनी समाचार

मिर्जापुर, मिर्जापुर कलेक्ट्रेट सभागार में संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर डीएम प्रियंका निरंजन ने बैठक की। जिलाधिकारी ने बाढ़ कंट्रोल रूम में 8-8 घण्टे शिफ्टवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत राज अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग एवं नगर पालिका व पंचायत चूने का छिड़काव व आवश्यक व्यवस्थाए सुनिश्चित कराए । ताकि संक्रामक बीमारियों से लोगों को बचाया जा सकें। बाढ़ से प्रभावित होने वाले खेतों का सर्वे उप जिलाधिकारी, उप निदेशक कृषि संयुक्त रूप से कर ले। उन्होंने कहा कि तीन-तीन अच्छेस्थलों पर मानव व पशु सहायता शिविर की स्थापना की जाए। प्रभावित गांवों के परिवारों की सूची के अनुसार पर्याप्त मात्रा में सामाग्री उपलब्ध होनी चाहिए। सभी बाढ़ चैकियों पर वायरलेस की सुविधा अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे गांव जो बाढ़ के दौरान पूरी पानी घिर जाते है, उनके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डॉक्टरों की टीम बना ली जाए। ताकि वहां किसी प्रकार के उपचार की आवश्यता हो तो उन्हें मुहैया कराया जा सके। कहा कि स्थानीय गोताखोरों व नाविको से सम्पर्क स्थापित किया जाए ताकि बाढ़ के दौरान रास्ते की जानकारी में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि राहत शरणालयों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम व तहसीलवार माइक्रो प्लान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित प्रत्येक विकास खण्डों में कम से कम एक-एक मॉडल शरणालय अवश्य बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि मॉडल बूथ की तरह ही मॉडल राहत शिविरों की स्थापना की जाए। इसके साथ ही बाढ़ के दौरान हेलीपैड का भी निर्माण कराया जाए। कहा कि जल भराव होते ही सभी राहत शिविर सक्रिय कर दिए जाएं।

सम्पादकीय

अबकी बार लोकसभा में बिरला की कठिन परीक्षा

ओम बिरला ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। विपक्ष ने कोडिकुन्नील सुरेश को अपना उम्मीदवार जरूर खड़ा किया था, पर वोटिंग के लिए जोर नहीं दिया। यह विपक्ष का प्रतीकात्मक तरीका रहा। बिरला की यह दूसरी पारी है। मोदी सरकार 2.0 के समय भी वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक ओम बिरला ही लोकसभा अध्यक्ष रहे। वर्ष 2014 में जब केंद्र में पहली बार मोदी की सरकार बनी थी, तो सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष बनी थीं। पहली बार है जब भाजपा नीत राजग सरकार में कोई नेता लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बना हो। इस बार लोकसभा का नजारा बदला हुआ है। भाजपा अपने दम पर बहुमत में नहीं है, राजग बहुमत में है, विपक्ष के रूप में इंडिया ब्लॉक मजबूत है, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निम्न सदन में ओम बिरला की कार्यकुशलता की असली परीक्षा होगी। सत्ता पक्ष पर सदन में विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगते रहे हैं। ओम बिरला के पहले कार्यकाल में राहुल गांधी समेत करीब 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन किया गया था, राहुल गांधी को जल्दबाजी में अयोग्य ठहराया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल की सांसदी फिर बहाल कर दी गई थी। इस पूरी प्रक्रिया में ओम बिरला पर सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर काम करने के आरोप कई बार लगे। जबकि लोकसभा अध्यक्ष का पद और कार्यक्षेत्र दलगत राजनीति से ऊपर होता है। 18वीं लोकसभा में 99 सीटों के साथ सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस है, सो कांग्रेस के खाते में सदन में नेता विपक्ष का पद है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाया है, राहुल को इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों का समर्थन भी प्राप्त है, हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सुर तल्ख हैं, पर विरोध में नहीं है। वर्ष 2014 व वर्ष 2019 में कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं थीं कि वह नेता प्रतिपक्ष पद की पात्रता को पूरा कर पाती, इसलिए दोनों ही कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली ही रहा। भारतीय लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष को बहुत अधिक संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, इसलिए अब राजग के लिए कोई भी फैसला लेना आसान नहीं होगा, ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जिम्मेदारी बढ़ेगी, सदन को चलाने में अधिक सहनशीलता का परिचय देना होगा, विपक्षी सांसदों के प्रति नरम रवैया रखना होगा। लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्हें आसन तक पीएम नरेन्द्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लेकर गए। बिरला को बधाई देते हुए जहां पीएम ने कहा कि आपका अनुभव सदन का सुचारू चलाने में काम आएगा, वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज सुनी जाएगी। अखिलेश यदव समेत विपक्ष के नेताओं ने यह भी उम्मीद जताई कि उन्हें सदन में जनता की आवाज उठाने का पर्याप्त समय मिलेगा, सांसदों के निष्कासन जैसी कार्यवाही नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि पहले ही दिन सदन में आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव के दौरान विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। सदन में कार्य निष्पादन में ओम बिरला को अपने अनुभव के आधार कार्यकुशलता दिखानी होगी, लोकसभा की हांगामा संस्कृति में बदलाव लाना होगा, पद की गरिमा का पालन करना होगा और निष्पक्षता व निरपेक्षता का मानदंड स्थापित करना होगा। अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला को दलगत सीमा से ऊपर उठते हुए ऐसी नजीर पेश करनी होगी कि लोकसभा के इतिहास में उनका मुकाम निष्पक्ष व निरपेक्ष अध्यक्ष के रूप में कायम हो।

विश्लेषण
डॉ. रमेश ठाकुर

कांग्रेस बीते 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इतना पिछड़ गई थी कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद भी नसीब नहीं हुआ। नेता विपक्ष पद की बात तो दूर, पार्टी का भविष्य और अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया था। कम नंबर संख्या के कारण ही संसद में नेता विपक्ष की सीट भी रिक्त रही 2024 का जो जनादेश मिला है वह सभी दलों के लिए एक सीख जैसा है। कांग्रेस को जनता ने नया जीवनदान दिया है, इसलिए कांग्रेस के सितारे एक बार फिर थोड़े से चमके हैं। पिछली बार मात्र 52 सांसद ही जीतकर संसद पहुंचे थे, पर ये आंकड़ा इस बार 99 तक पहुंच गया है। तभी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के लिए दावेदार हुई और उसे यह पद मिला भी है।

नेता विपक्ष राहुल की चुनौतियां

सोलहवीं और 17वीं लोकसभा में नबंरों के लिहाज से कांग्रेस बीते 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इतना पिछड़ गई थी कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद भी नसीब नहीं हुआ। नेता विपक्ष पद की बात तो दूर, पार्टी का भविष्य और अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया था। कम नंबर संख्या के कारण ही संसद में नेता विपक्ष की सीट भी रिक्त रही, परंतु कहते हैं न कि सियासत में चमत्कार की संभावनाएं अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रहती हैं। किसके सितारे बुलंद हो जाएं और किसके अचानक बुझ जाएं इसका पता नहीं चलता क्योंकि इसका सारा दारोमदार और सब कुछ जनता-जर्नादन के मूड और विचारों पर निर्भर रहता है? बीते 2024 के आम चुनाव में हुआ भी कमोबेश कुछ ऐसा ही हुआ है। भाजपा 400 पार के नारे के साथ फिर से प्रचंड बहुमत में आने का दावा कर रही थी और पूरी तरह आश्वस्त भी थी, लेकिन जनता ने उसके दावे को अस्वीकार कर दिया। भाजपा जैसे गठबंधन की सीटों का 400 का दावा कर रही थी, वैसा हुआ नहीं, जनता ने उसे बहुमत देकर मौका तो अवश्य दिया, लेकिन आधा-अधूरा? हालांकि, यह भी गौरतलब है कि कांग्रेस ने इस बार उम्मीद से कहीं बढ़कर बेहतरीन प्रदर्शन कर खुद को लड़ाई में बरकरार रखा।

कोई भी राजनीतिक दल चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा प्रचंड जीत से बौराने की प्रवृति से सभी को तौबा करना होगा। 2024 का जो जनादेश मिला है वह सभी दलों के लिए एक सीख जैसा है। कांग्रेस को जनता ने नया जीवनदान दिया है, इसलिए कांग्रेस के सितारे एक बार फिर थोड़े से चमके हैं। पिछली बार मात्र 52 सांसद ही जीतकर संसद पहुंचे थे, पर ये आंकड़ा इस बार 99 तक पहुंच गया है। तभी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के लिए दावेदार हुई और उसे यह पद मिला भी है। । अच्छे नंबरों से पास होने का ही नतीजा है कि नेता विपक्ष के लिए राहुल गांधी के नाम पर ताजपोशी होनी विपक्षी धड़े की ओर से मुकर्रर हुई है, लेकिन जनता का संदेश पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बराबर है? जो जनता के हित में काम करेगा, उसकी जयकार होगी। वरना, घमंड चकनाचूर करने में देश के मतदाता जरा भी नहीं हिचकेंगे? 2024 के जनादेश ने देश की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। चाहे प्रधानमंत्री हों या नेता विपक्ष देश की जनता सभी से काम की उम्मीद करने की करती है। नेता भी अब समझ गए हैं कि केवल लच्छेदार भाषणों और हवा-हवाई दावों से अब काम नहीं चलने वाला? बहरहाल, गठबंधन राजनीति में नेता विपक्ष के पद को पूरे पांच वर्ष तक सुचारू रूप से यथावत रखना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा? पद पर आसीन होने वाले ओहदेदार के लिए भी चुनौतियों की भरमार रहेगी। उन्हें हर घड़ी अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा। नेता विपक्ष का पद राहुल गांधी की सियासी समझ की भी कठिन परीक्षा लेगा, क्योंकि सत्तापक्ष और देश की एक बड़ी आबादी अभी तक उन्हें सियासत का 10वीं पास छात्र ही समझती रही है। दरअसल समझने के कई ताजा उदाहरण भी सामने मुंह खोले जो खड़े हैं। राहुल गांधी कई

बार अपने सियासी प्रयोगों में विगत वर्षां में असफल हुए हैं, इसलिए भी लोगों को थोड़ा बहुत संदेह अब भी है? अगर उनके सियासी इतिहास के पन्ने खोलें तो सामने एक विफलता भरी तस्वीर उभरकर सामने आती है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी अच्छे से निर्वाह नहीं कर सके, जिसके चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। अमेठी से चुनाव भी हारे और अपनी अगुआई में पार्टी को चुनाव लड़ाकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके। कुल मिलाकर उनके हिस्से में सियासी असफलता की भरमार है। यहां पर उल्लेखनीय है कि इन गुजरे वर्षों में अच्छी बात ये रही कि वह लगातार हारने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारे, सियासी मैदान में मजबूती के साथ डटे रहे? उन्होंने खुद को साबित करने के मकसद से ही भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने लोगों का समर्थन हासिल किया। यही कारण है, जनता ने उन पर थोड़ा भरोसा जताया है और कांग्रेस के नेताओं को इतनी संख्या में संसद पहुंचाया कि उन्हें नेता विपक्ष का पद हासिल हो पाया है।

खैर, राजनीति में असफलता ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि कोई भी हार सकता है, इसलिए ये पुरानी और बेजान बातें ही हैं। सियासत ऐसा अखाड़ा है जहां अच्छे से अच्छा खिलाड़ी चित हुआ है। ताजा उदाहरण मौजूदा लोकसभा चुनाव का परिणाम है जिसमें बड़े से बड़े सूरमा अपने अपने क्षेत्रों में धराशायी हो गए हैं। अपने राजनीतिक करियर में राहुल गांधी पहली मर्तबा कोई संसदीय ओहदा संभाल रहे हैं।

18वीं लोकसभा में वह नेता विपक्ष की भूमिका में होंगे, जिसे इंडिया गठबंधन के तकरीबन सभी प्रमुख नेताओं ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। राहुल की उम्मीदवारी की स्वीकृति के लिए प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को कांग्रेस की ओर से बीती 25 जून की देर शाम को अर्जी भी भेज दी गई थी। हालांकि उनके इस पद को लेकर कोई अड़चन या अड़गा इसलिए नहीं लगेगा, क्योंकि संसदीय परंपरा और नियमानुसार नेता विपक्ष के लिए किसी भी दल के पास दस फीसदी सांसद होने चाहिए, जिसमें कांग्रेस सफल है। नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को दस साल बाद नसीब हुआ।
राहुल नेता विपक्ष बनने वाले गांधी परिवार से तीसरे सदस्य हैं। इससे पहले उनके पिता राजीव गांधी और सांसद माता सोनिया गांधी यह जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। प्रतिपक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों में, प्रत्येक में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्वकर्ता होता है।

नेता विपक्ष का ओहदा अपने आप में बहुत मायने रखता है। प्रधानमंत्री जैसी एक तिहाई शक्तियां उन्हें प्रदान होती हैं। नेता विपक्ष की सुविधाएं केंद्रीय मंत्री से भी कहीं अधिक बढ़ा दी जाती हैं। तनख्वाह भी तीन लाख रुपये से ऊपर होती हैं। इसके अलावा नेता विपक्ष प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक, सीबीआई प्रमुख, सीवीसी जैसे उच्चस्थ पदों की नियुक्ति में सहभागी होता है। प्रधानमंत्री को नियमानुसार नेता विपक्ष की राय लेनी अनिवार्य होती है। इसके अतिरिक्त नेता विपक्ष अभिलेखा समिति का भी प्रमुख रहता है जो सरकार के प्रत्येक निर्णयों और खर्चों पर निगाह रखता है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने तीसरे कार्यकाल में जो भी बड़े निर्णय लेंगे या संवैधानिक नियुक्तियां करेंगे उसमें नेता विपक्ष की भूमिका रहने वाले उस नेता की राय लिया करेंगे, जिन्हें चुनाव में उन्होंने ये भी कह दिया था कि 'कौन राहुल'? इसलिए इस बार की संसदीय प्रक्रिया बहुत दिलचस्प और टकराव भरी होने वाली है। इसमें चुनौती राहुल गांधी के समझ सबसे ज्यादा रहेंगी, क्योंकि जनता उनके दमखम को नेता विपक्ष के तौर पर परखेगी और इतना ही नहीं भविष्य की राजनीति में उनके कद को तय करेगी।

ब्रिटेन आम चुनाव
विवेक शुक्ला

सुनक के भविष्य को लेकर सवाल

क्या ब्रिटेन में आगामी 4 जुलाई को होने वाले आम चुनावों के बाद भी देश के पहले हिन्दू प्रधानमंत्री श्रृषि सुनक अपने पद पर बने रहेंगे? क्या सुनक की कंजरवेटिव पार्टी को ब्रिटेन में बसे हुए भारतवंशी वोट देंगे? क्या भारतवंशियों के वोट लेबर पार्टी को भी मिलेंगे? बेशक, ये सवाल महत्वपूर्ण हैं। ब्रिटेन की 2011 की जनगणना के अनुसार, वहां लगभग 15 लाख भारतीय मूल के लोग हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.5 प्रतिशत है। ब्रिटेन में भारतीय सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। हिन्दुजा, लक्ष्मी मित्तल, स्वराज पाल जैसे भारतवंशी ब्रिटेन के सबसे धनी लोगों की सूची में जगह पाते हैं। संडे टाइम्स की बीती मई में जारी ब्रिटेन के सबसे बड़े धनकुबेरों की सूची में श्रृषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति का 245वां स्थान है। अक्षता इंफोसिस टेक्नोलॉजीज के फाउंडर चेयरमेन एन.आर. नारायणमूर्ति की पुत्री हैं। दरअसल ब्रिटेन में बसे भारतीयों का लंबे समय तक झुकाव लेबर पार्टी के साथ रहा है। हालिया सर्वेक्षणों से पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय दक्षिणपंथी कंजरवेटिव पार्टी की तरफ झुकाव बढ़ा है। लंदन में 1970 के दशक से बसे लेखक विनोद चव्हाण मानते हैं कि आगामी आम

चुनावों में ब्रिटेन में बसे हिन्दू वोटर कंजरवेटिव पार्टी के हक में एकमुश्त वोट दे सकते हैं। ये खबर श्रृषि सुनक और उनकी कंजरवेटिव पार्टी को सुकून दे सकती है। जब हम ब्रिटेन में बसे भारतीयों की बात करते हैं, तब उनमें वे भी शामिल होते हैं जो ब्रिटेन में ईस्ट अफ्रीका, कैरिबियाई टापू देशों और अन्य स्थानों से आकर बसते रहे हैं। सुनक का परिवार 1960 के दशक में केन्या से ब्रिटेन में जाकर बसा था। एक राय यह भी है कि नरेन्द्र मोदी के 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद ब्रिटेन में बसे बहुत बड़ी संख्या में भारतीय कंजरवेटिव पार्टी के समर्थक हो गए। इनमें हिंदू सर्वाधिक हैं। मोदी ने 2015 में अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान लंदन के वेम्बली स्टेडियम में 60,000 भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। वे अपने को भारत का दामाद कहने में फख्र महसूस करते हैं। वे अलग किस्म के दामाद हैं। उनकी (दूसरी तलाकशुदा) पत्नी मारिना व्हीलर की मां दीप सिंह कौर की पहली शादी दिल्ली के नामवर ठेकेदार सर सोबा सिंह के पुत्र सरदार दलजीत सिंह से हुई थी। सोबा सिंह के चार पुत्र थे। उनमें से एक लेखक खुशवंत सिंह भी थे। अब एक और महीन बात को समझना होगा। ब्रिटिश में भारतीय धर्म के आधार पर भी बंटे हुए हैं। माना जा रहा है कि अधिकांश भारत मूल के मुस्लिम और सिख लेबर पार्टी के साथ जा सकते हैं। ब्रिटेन में 1960 से 1980 के दशकों में भारत के अलावा, युगांडा, केन्या और कैरिबियाई टापू देशों से भी काफी तादाद में भारतीय मूल के बसे थे। ये लेबर पार्टी को प्रवासियों के हमदर्द के रूप में देखते थे। यह वही दौर था जब लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री हेरेल्ड विल्सन 1965 में रेस रिलेशंस एक्ट लेकर आए। उसे नस्लीय भेदभाव को रोकने की दिशा में अहम कानून माना गया था। ब्रिटेन के हिन्दुओं का 2010 से रुख कंजरवेटिव पार्टी की तरफ होने लगा था। उन भारतीयों में दूसरी और तीसरी पीढ़ी के धनी और शिक्षित हिन्दू भी थे। पिछले 20-25 वर्षों में भारत से नया प्रवासी समुदाय ब्रिटेन पहुंचा है। ये डॉक्टर, इंजीनियर, आई.टी.पेशेवर वगैरह हैं। ये सब अपने को कंजरवेटिव पार्टी का वोटर बताते हैं। यूं ही भारतवंशियों का लेबर पार्टी से मोहभंग नहीं हुआ। हुआ यह कि लेबर पार्टी ने 2019 में एक प्रस्ताव पारित करके जम्मू- कश्मीर के लोगों को 'आत्मनिर्णय का अधिकार' देने की मांग की। लेबर पार्टी के इस प्रस्ताव के कारण ब्रिटेन में बसा भारतीय प्रवासी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा लेबर पार्टी से दूर होने लगा। सुनक 2022 में ब्रिटेन के पहले हिन्दू प्रधानमंत्री बने। इसके चलते वहां के हिन्दू और कंजरवेटिव पार्टी के बीच संबंध और गहरे हो गए। अभी नहीं कहा जा सकता कि हिन्दू पूरी तरह से कंजरवेटिव पार्टी के साथ जाएंगे? हिन्दू ब्रिटेन का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। अब तक 29 हिन्दू संगठनों ने इस घोषणापत्र का समर्थन किया है। घोषणापत्र के अनुसार, 'हिन्दू ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की जान है।

शिवत्व की साधना

संकलित
दर्शन

हर कर्म का आरंभ संकल्प से होता है। बातों को बनाने, बिगाड़ने व संभालने का आधार भी हमारा सोच रूपी कर्म है। अच्छे या बुरे सोच के कारण हमारे कर्म और कर्मफल सुखदायी व दुखदायी होते हैं। इसलिए कहते हैं, परमात्मा शिव अपनी शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों से सोच को परिष्कृत कर दुनिया को परिवर्तित कर देते हैं। उनका प्रत्येक संकल्प मानवता का कल्याण व सद्ज्ञान है, जिसकी वर्षा से प्रकृति में शांति, संतुलन, सद्भावना व प्रसन्नता का वातावरण निर्मित होता है। मानव जीवन व संसार से विकार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुख, कष्ट व हिंसा के ताप समाप्त होते हैं। परमात्मा के इस सृष्टि परिवर्तन या उद्धार कार्य से कृतज्ञ होकर हम श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा-अर्चना और व्रत-उपवास करते हैं। शिव की महिमा स्मरण, गायन, पूजन व श्रवण से श्रावण मास शिवमय हो जाता है। कहते हैं, चातुर्मास के आरंभ में भगवान विष्णु जब शयन में चले जाते हैं, तब परमात्मा शिव संसार की बागडोर संभालते हैं। शिव निराकार ज्योति स्वरूप हैं। वे शिव ज्ञान व योग सिखाकर मनुष्यों में सतयुगी दिव्य गुण व दैवी संस्कारों को पुनः विकसित करते हैं। जब भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं, तब सृष्टि को बचाने एवं भक्तों की शुद्ध भावनाओं और कामनाओं का फल देने हेतु शिव अदृश्य रूप में संसार का कार्यभार संभालते हैं। ज्ञान सूर्य ज्योति स्वरूप शिव अपने ईश्वरीय ज्ञान व शिक्षा के प्रकाश द्वारा मनुष्यों के आसुरी अवगुणों को सद्गुण, दैवी चरित्र व दैवी संस्कारों में बदलते हैं।

गुरु की सीख से बड़ी से बड़ी मुश्किलें होती है दूर

संकलित
प्रेरणा

बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। महाभारत के आदि पर्व के मुताबिक, बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और अपने ज्ञान से देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं। एक कथा है कि एक बार देवराज इंद्र की जगह राजा नहुष को स्वर्ग का राजा बनाया गया था। स्वर्ग का राजा बनते ही राजा नहुष अहंकारी हो गया। वह देवताओं को तरह-तरह से परेशान करता रहता था। सभी देवगण राजा नहुष से त्रस्त हो गए थे। इसी बीच बलशाही होने के कारण राजा नहुष के मन में इंद्र की पत्नी शची के लिए पाप आ गया। वह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। इससे डरकर शची देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचीं। बृहस्पति ने शची को एक योजना बताई। बृहस्पति ने शची से कहा कि आप नहुष से कहना कि जब वह सप्त ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर आएगा, तब ही वह उसे अपना स्वामी मानेगी। शची ने यही किया। बृहस्पति की योजना के अनुसार शची ने ये बात नहुष से कह दी। नहुष ने ऐसा ही किया। सप्तऋषि जब पालकी उठाकर चल रहे थे, तभी अहंकारी राजा नहुष ने एक ऋषि को लात मार दी। क्रोधित होकर ऋषि ने उसे उसी समय स्वर्ग से गिरने का शाप दे दिया। शाप के बाद राजा नहुष ने स्वर्ग का राजपाठ खो दिया। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति की सलाह से शची की रक्षा हो गई। गुरु की सीख से बड़ी-बड़ी मुश्किलें दूर हो सकती हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

संविधान की चिंता किसे और क्यों?

इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी विरोधी राजनीतिक दलों ने संविधान को मुद्दा बनाया था, लेकिन अब जबकि चुनाव हो चुका है, इसका परिणाम भी सामने आ चुका है और 18वीं लोकसभा का सत्र भी शुरू हो चुका है, लेकिन विपक्ष अभी भी संविधान को बचाने की बात कर रहा है। सवाल यह है कि संविधान की चिंता किसे और क्यों है? क्या देश में भ्रष्टाचार को पनपने देना, अवसरवाद, पेपर लीक आदि संविधान के लिए उचित हैं? बीते समय में संविधान को बचाने के लिए क्या किया गया या फिर इसके विरुद्ध क्या कुछ हुआ, यह कुछ मायने नहीं रखता, बल्कि देश के हर धर्म-जाति के नागरिक को संविधान के अनुसार अधिकारों का लाभ मिले, यह जरूरी है। अगर समय के साथ-साथ संविधान में कुछ बदलाव भी करना पड़े, तो इसमें शायद कोई हर्ज नहीं है। *- राजेश गुप्ता, धमतरी*

करंट अफेयर

सीपैक को नुकसान पहुंचाने की बात टीटीपी ने स्वीकारी

प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के वरिष्ठ कमांडर ने दावा किया है कि वह बलूचिस्तान के प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन के साथ मिलकर 60 अरब अमेरिकी डॉलर की चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना (सीपैक) को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। यह दावा अशांत बलूचिस्तान सूबे के गृहमंत्री मीर जिया लन्ग्रोव ने बुधवार को क्वेटा में किया। लन्ग्रोव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ' तहरीक-ए-तालिबान के रक्षा शूरा (परिषद) प्रमुख नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर को हाल में सुरक्षाबलों ने बलूचिस्तान से तब गिरफ्तार किया जब वह सूबे में आतंकवादी हमले की योजना बना रहा था।

ऑफ बीट

अश्वेत दाताओं की किडनी का होता है कम इस्तेमाल

अमेरिका में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में, गुर्दे की बीमारी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। यह बीमारी विशेष रूप से अश्वेत अमेरिकियों में गंभीर है, जिनकी किडनी खराब होने की संभावना श्वेत अमेरिकियों की तुलना में तीन गुना अधिक है। जबकि अश्वेत लोग अमेरिका की आबादी का केवल 12% हैं, गुर्दे की विफलता वाले लोगों में उनकी हिस्सेदारी 35% है। इसका कारण आंशिक रूप से अश्वेत समुदाय में मधुमेह और उच्च रक्तचाप - गुर्दे की बीमारी के दो सबसे बड़े योगदानकर्ता - की व्यापकता है। अमेरिका में लगभग 100,000 लोग किडनी प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे हैं।

ट्रेंड

अद्भुत भाव था

मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष ने आपातकाल की कड़ी निंदा की, उस दौरान हुई ज्यादतियों पर प्रकाश डाला और जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया, उसका भी जिक्र किया। उन दिनों के दौरान पीड़ित सभी लोगों के सम्मान में मौन खड़े रहना भी एक अद्भुत भाव था।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

स्वास्थ्य मानवाधिकार

स्वास्थ्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए मौलिक है। हमें स्वास्थ्य को सुरक्षा के मानव अधिकार के रूप में देखना चाहिए। हमें स्वास्थ्य को नियंत्रण की लागत के रूप में नहीं, बल्कि पोषण के लिए निवेश के रूप में देखना चाहिए।
-डॉ. टेड्रोस, डब्ल्यूएचओ महानिदेशक

घृणा का जवाब

राहुल गांधी ने नफ़रत और घृणा का जवाब इस देश को मोहब्बत सिखा कर दिया। अन्याय के ख़िलाफ़न्याय की जंग लड़ी। इस देश को अहंकारी तानाशाह के सामने खड़े होने की प्रेरणा दी और अब आपकी ताक़त नेता विपक्ष के तौर पर सदन में दिखाई देगी।
-सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस नेता

वकील ने भी माना

जज ने कहा कि "मैंने स्टेटमेंट पढ़ लिया है और मैं ख़ुद बोल रहा हूं कि केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा है।" सीबीआई झूठ बोल रही है। सीबीआई के वकील ने भी माना।
-संजय सिंह, आप नेता



संक्षेप

संचारी रोग नियंत्रण के लिए सभी का सहयोग जरूरी: डॉ अर्चित

अमन लेखनी समाचार

बाबागंज, बहराइच। संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान को सफल बनाने के लिए शनिवार को ब्लॉक स्तरीय सभी नोडल अध्यापकों का अभिमुखीकरण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरदा सभागार में पूर्व अधीक्षक डॉ अर्चित श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक आहुति हुई। इस मौके पर डॉ श्रीवास्तव ने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने में सभी का सहयोग जरूरी है। स्कूली बच्चों के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि कहीं पर जल भराव ना होने दे और आसपास के प्रवेश को स्वच्छ साफ सुथरा रखें। संचारी रोग से निपटने के लिए अभिभावकों एवं स्कूली बच्चों को भी जागरूक करें। चिकित्सकों की टीम ने शिक्षकों कों जुलाई में चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान कों लेकर जागरूक किया।यूनिसेफ बीएमसी सतेंद्र मिश्रा, शरदचंद्र मिश्रा, हरिराम आर्य सहित सैकड़ो शिक्षक उपस्थिति रहे।

सुलतानपुर में युवक की पीटकर हत्या

अमन लेखनी समाचार

सुलतानपुर, सुलतानपुर में बीती रात मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष ने युवक की पीटकर हत्या कर दी। युवक की पत्नी भी घटना में घायल हुई है। वहीं, दूसरे पक्ष से भी तीन लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक को गंभीर चोटें आई हैं। उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। दोस्तपुर के ताजुद्दीनपुर निवासी आत्माराम और हौसिला प्रसाद के बीच बीती रात जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों तरफ से लाठियां चलीं। एक पक्ष से आत्माराम (40) उसकी पत्नी आरती (35) घायल हुए तो दूसरे पक्ष से हौसिला (40), किरन (22) पुत्री हौसिला, रेनू (17) पुत्री हौसिला को चोटें आईं। सभी घायलों को पुलिस सीएचसी दोस्तपुर लेकर आई। यहां से आत्माराम उसकी पत्नी आरती और दूसरे पक्ष के हौसिला को डॉक्टर ने राजकीय मेडिकल कॉलेज सुलतानपुर रेफर कर दिया। देर रात राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने आत्माराम को मृत घोषित कर दिया।

अयोध्या में पंखे से लटकता मिला युवती का शव

अमन लेखनी समाचार

अयोध्या, अयोध्या जिले के कोतवाली रुदौली क्षेत्र में 28 साल की लड़की ने अपने ही घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या कर ली है। पटरंगा थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती ने ने संदिग्ध परिस्थितियों फांसी यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। हत्या या सुसाइड, दोनों एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार घटना बुधवार की है। पटरंगा थाना क्षेत्र के ग्राम परसऊ निवासी हृदय प्रसाद वर्मा की पुत्री सरिता वर्मा ने गले मे दुपट्टा बांधकर छत में लगे पंखे में लटककर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया।

व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मना दानवीर भामाशाह जन्मदिवस

व्यापारियों एवं कर दाताओं का हुआ सम्मान

अमन लेखनी समाचार/संतोष मिश्रा

बहराइच। महाराणा प्रताप को युद्ध में अपना सब कुछ दान करने वाले दानवीर भामाशाह का जन्म दिवस व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विकास भवन में आयोजित समारोह की मुख्य अतिथि सीडीओ सुश्री रम्या आर. ने विशिष्ट अतिथि नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, डीडीओ महेन्द्र कुमार पाण्डेय, उपायुक्त उद्योग केन्द्र केशव वर्मा, उपायुक्त व्यापार कर सी.के. गौतम व योगेश द्विवेदी, सीटीओ श्रुति राय, व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष गौरीशंकर भानीरामका व अन्य प्रमुख लोगों के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।

समारोह में सर्वाधिक जीएसटी देने वाले व्यापारी आशीष कुमार साहू व बकाउल्ला खां को शील्ड व प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा समारोह में मौजूद इन्वेस्टर्स समिट निवेशकों एवं व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि सीडीओ रम्या आर. ने अपने संबोधन में व्यापारियों, टैक्स अधिवक्ताओं, अधिकारियों व अन्य मौजूद लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि व्यापारीगण व्यापार करने के साथ सरकार को टैक्स के रूप में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। इसलिए वीर भामाशाह की तरह आप सब व्यापारी हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उपायुक्त जीएसटी सी.के. गौतम व डीडीओ श्री पाण्डेय ने भामाशाह के व्यक्तित्व एवं कृतत्व पर प्रकाश डाला। उपायुक्त जीएसटी योगेश द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत व्यापारियों के लिए चलाई गयी व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। उपायुक्त उद्योग केशव राम ने बताया कि बहराइच के निवेशक बधाई के पात्र हैं क्योंकि एमओयू क्रियान्वन में जिले को उत्तर प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। समारोह में व्यापार मण्डल जिलाध्यक्ष गौरीशंकर भानीरामका सहित जिले के विभिन्न व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सदस्य टैक्स बार एसोशियेशन के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, सचिव अजय श्रीवास्तव एवं सदस्य एवं व्यापारीगण उपस्थित रहे।

बरसात में न हो जल भराव की समस्या, चलाया जा रहा सफाई अभियान

- आदर्श नगर पंचायत मिहींपुरवा में चल रहा साफ सफाई का अभियान
- नगर पंचायत के 15 वार्डों में चल रहा साफ सफाई का कार्य

अमन लेखनी समाचार/मिथिलेश जायसवाल

मोतीपुर, बहराइच। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही मिहींपुरवा नगर पंचायत में साफ सफाई का अभियान तेज कर दिया गया है। जिससे बारिश होने से पूर्व ही नाला और नाली की सफाई हो जाए। साफ सफाई हो जाने से नगर पंचायत में जल भराव और कीचड़ की समस्या से निजात मिलेगी। बलहा विधानसभा के अंतर्गत आने वाला नगर पंचायत मिहींपुरवा जिसे आदर्श नगर पंचायत का भी दर्जा प्राप्त है। नगर पंचायत में 15 वार्ड हैं सभी वार्डों में साफ सफाई का अभियान तेजी से किया जा रहा है जिससे बारिश में जल भराव की समस्या ना हो। बलहा विधायक सरोज सोनकर के प्रतिनिधि आलोक जिंदल ने बताया कि नगर पंचायत में जल भराव की समस्या ना हो इसके लिए युद्ध स्तर पर सफाई कर्मियों को लगाकर नाला नाली सहित सड़क की सफाई का कार्य किया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र मदेशिया ने बताया कि नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों में साफ सफाई का काम चल रहा है जिससे बारिश में लोगों को जल भराव की समस्या से छुटकारा मिलेगा।

जमीनी विवाद में भिड़े दो पक्ष

- जमकर चले लात घूंसे और लाठी डंडे, ग्राम प्रधान और राजस्व टीम भी थी मौजूद

अमन लेखनी समाचार

अमेठी जिला, अमेठी में जमीनी विवाद में दो पक्ष आमने-सामने हो गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लात-घूंसे और लाठी-डंडे चलने लगे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के दौरान राजस्व टीम और ग्राम प्रधान मौके पर मौजूद थे। घटना के बाद थाने में दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। पूरा मामला रामगंज थाना क्षेत्र के सांगापुर गांव का है, जहां 21 जून को जमीनी विवाद में दो पक्षों में विवाद हो गया जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सांगापुर गांव के रहने वाले शिवम वर्मा पुत्र राज बहादुर वर्मा और शिव शंकर पुत्र राम किशुन के बीच पुराना जमीनी विवाद चल रहा था। 21 जून को दोनों पक्ष उसी विवादित जमीन पर मौजूद थे, जहां जमीन नापने को लेकर विवाद हो गया।

देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट का वीडियो 26 जून की देर शाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

महिला सिपाही से छेड़छाड़-मारपीट

- साथी कॉन्सटेबल ने सरेराह की हरकत, बोला- मुझसे शादी कर लो वरना

अमन लेखनी समाचार

अयोध्या, अयोध्या कोतवाली में तैनात एक महिला सिपाही से सहकर्मी ने बीच सड़क छेड़छाड़ की। इसका वीडियो भी सामने आया है। इस केस में दो दिन पहले महिला सिपाही ने नगर कोतवाली में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही शादी के लिए दबाव बनाने और मारपीट करने का आरोप लगाए हैं। महिला सिपाही का कहना है कि उसके साथ काम करने वाले सिपाही ने उसके साथ मारपीट की। बीच सड़क उसे पकड़ते हुए बोला- मुझसे शादी कर लो, वरना अंजाम बुरा होगा। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आरोपी सिपाही अंकित कुमार यादव महिला सिपाही से छेड़छाड़ कर रहा है। वीडियों में दिखाई दे रहा है कि महिला सिपाही पैदल जा रही थी, तभी बाइक से सिपाही अंकित कुमार पीछा करते करते आता है। फिर उसे रोकर बाइक पर जबरन बैठाने का प्रयास करता है। महिला सिपाही बाइक पर बैठने से मना कर देती है। और वापस गली में चली जाती है। इस दौरान संदीप भी पीछे से उसके पास पहुंच जाता है। वीडियो में पांच मिनट तक सिपाही उस महिला सिपाही को बाइक पर जबरन बैठाने का प्रयास करता है। इस दौरान लोगों की भीड़ लग जाती है। महिला सिपाही का ने आरोप लगाते हुए कहा- कोतवाली में तैनात सिपाही अंकित कुमार यादव से उसकी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी। दोनों ऑफिशियल काम के सिलसिले में मिलते रहते थे। फिर अंकित उससे बार-बार शादी का दबाव बनाने लगा। मना करने पर फोन करना शुरू कर दिया और परेशान करने लगा। महिला सिपाही ने आरोप लगाया कि अंकित ने साकेत महाविद्यालय के पास उसका फोन तोड़ दिया। इसके ऊपर मोटर साइकिल चढ़ा दी और मारपीट करने लगा।

उसी दिन आरजेबी परिसर में ड्यूटी स्थल पहुंच कर धमकाते हुए साथ चलने को कहा। साथ जाने पर उदया स्कूल के पास तथा गुप्तार घाट पर मारपीट की। इसके बाद महिला सिपाही छुट्टी पर अपने घर चली गई। वापस आने पर उसका पीछा करने लगा। 18 जून को फोन पर अंकित ने महिला सिपाही से गाली गलौज की।

अयोध्या में 50 दुकानों पर चला बुलडोजर

- नेशनल हाईवे 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा, रौनाही पड़ाव से ड्योढी बाजार तक काम चल रहा

अमन लेखनी समाचार

अयोध्या, अयोध्या में अतिक्रमण कारी दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। जिले के रौनाही थाना सोहावल तहसील क्षेत्र नेशनल हाई वे रौनाही पड़ाव से ड्योढी बाजार तक चौड़ीकरण में अतिक्रमण पाया गया। इसकी जद में आने वाली करीब 50 दुकानों पर लोक निर्माण विभाग तहसील एवं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। शाम इस कार्यवाही के आरंभ होते ही क्षेत्र के अन्य अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। रौनाही पड़ाव से ड्योढ़ी तक लगभग साढ़े सात मीटर की चौड़ीकरण में जद में आने वाली दुकानों में निशान लगाने, नोटिस देने के बाद चुप बैठने वाले दुकानदारों के विभाग के अचानक भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ पहुचते ही इस अभियान की चपेट में आ रहे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कईयों ने तो खुद अपना सामान समेटना शुरू कर दिए।

पत्नी पर चाकू से हमला फिर किया सुसाइड

- अमेठी में खाने को लेकर हुआ झगड़ा, पेड़ से लटका मिला शव, महिला की हालत गंभीर

अमन लेखनी समाचार

अमेठी जिला, अमेठी में देर रात खाना खाने को लेकर हुए झगड़े के बाद पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद पति ने गांव में एक पेड़ से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। गम्भीर रूप से घायल पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला भाले सुल्तान थाना क्षेत्र के बेचूगढ़ गांव का है, जहां कल रात करीब आठ बजे खाना खाने को लेकर बदलू का उसकी पत्नी अनीता से झगड़ा हो गया और दोनों में लड़ाई होने लगी। झगड़े में बदलू ने अपना आपा खो दिया और पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद पति घर से बाहर निकला और एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं, घायल अनीता को सीएचसी जगदीशपुर पहुंचाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल गौरीगंज रेफर कर दिया।

सुबह बबलू का शव पेड़ से लटकता देख गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने परिजनों के साथ ही पुलिस को भी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसओ दयाशंकर मिश्र ने कहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवक की मां धनपता ने कहा कि देर रात दोनों में खाना खाने को लेकर विवाद हुआ, इसके बाद चिल्लाने की आवाज आईं। जब मैं गई तो अंदर लड़ाई हो रही थी। इसके बाद मैं आसपास के लोगों को मौके पर बुलाने के लिए चिल्लाने लगी। वहीं, महिला के भाई राधेश्याम ने कहा कि रात को सूचना मिली कि बहन को जीजा ने चाकू मार दिया है जिसके बाद हम लोग जगदीशपुर अस्पताल पहुंचे। वहां से बहन को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

गौशाला के पास मृत मिले कई दर्जन गोवंश

सुलतानपुर में कुछके मिले कंकाल, पोस्टमार्टम के बगैर गड्ढों में दफनाया गया

अमन लेखनी समाचार

सुलतानपुर, सुलतानपुर के लंभुआ में एक गौशाला में कई दर्जन गोवंशों की मौत हो गई। पचास मीटर दूर गोवंश के क्षत-विक्षत शव से उठी दुर्गंध से परेशान ग्रामीणों ने जब आवाज बुलंद की तब अधिकारियों की नींद टूटी। आनन-फानन में अधिकारी लीपापोती के लिए गोशाला पहुंचे। इस बीच खबर लगते ही राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी ने डीएम व सीडीओ को फोनकर कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला लंभुआ के वृहद गौशाला खुनशेखपुर का है। यहां गोशाला से 50 मीटर दूर स्थित गड्ढे में कई दर्जन गौवंश मरे हुए पाए गए। वहां पर कुछ गोवंश का कंकाल भी पाया गया। ग्रामीणों के अनुसार यहां प्रतिदिन लगभग 7 से 8 गोवंश मर रहे हैं। न तो यहां ठीक से चारे की व्यवस्था है और न ही डॉक्टर बीमार गाय का इलाज करने आ रहे हैं। गोशाला में चारा भी नाम मात्र का रहता है। बिना चारा एवं बिना इलाज के गोवंश के मरने का सिलसिला जारी है। गौशाला में मौके पर तीन से चार गाय मरणासन्न अवस्था में पाई भी गईं। दो महिलाओं के अलावा अन्य कोई कर्मचारी गौशाला में मौजूद नहीं मिला। ग्रामीणों की मानें तो जो गोवंश मरते हैं उनका न पोस्टमार्टम कराया जाता है और न ही विधिवत अंतिम संस्कार। मरने के बाद गोवंशों को खुले में फेंक दिया जा रहा है, जिसके कारण बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। अगल-बगल रहना मुश्किल हो गया है। खंड विकास अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने तथ्य पर पर्दा डालते हुए 20 गोवंश के मरने की बात कही है। जबकि ग्रामीणों के अनुसार संख्या इससे कई गुना अधिक है। इस मामले पर राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी सर्वेश सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ इसकी कड़ी निंदा करता है और उच्च स्तरीय जांच की मांग करता है।

अगर 24 घंटे के अंदर इसकी जांच नहीं की गई राष्ट्रीय और रक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

बीएसए कार्यालय से एमडीएम डीसी गिरफ्तार

- एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा, टीचर से ले रहा था 10 हजार रुपए

अमन लेखनी समाचार

बांदा, बांदा में एंटी करप्शन पुलिस टीम ने शिक्षा विभाग में एमडीएम योजना में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर तैनात भास्कर असवानी को शिक्षक से 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।एंटी करप्शन टीम ने आरोपी एमडीएम डीसी को बीएसए ऑफिस से गिरफ्तार कर देहात कोतवाली में ले जाकर मुकदमा दर्ज कराते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की। बीएसए विभाग में एमडीएम कोऑर्डिनेटर भास्कर आसमानी की पिछले काफी समय से शिक्षकों द्वारा आर्थिक शोषण की बात सामने आ रही थी, जिस पर कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत भी शिक्षकों द्वारा की गई थी, लेकिन इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सार्थक प्रयास उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया। एमडीएम की गड़बड़ी के मामले में बांदा बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षक गंगा सागर को आरोपी भास्कर आसवानी द्वारा लगातार उत्पीड़ित किया जा रहा था। शिक्षक से धनउगाही के चक्कर में वेतन वृद्धि विभाग द्वारा रोकी गई थी। रिश्वत की मांग से पीड़ित शिक्षक ने इसकी जानकारी एंटी करप्शन टीम को दी। एंटी करप्शन टीम ने आज बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय में शिक्षक से 10 हजार रुपए रिश्वत लेते एमडीएम डीसी भास्कर आसवानी को गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता शिक्षक का कहना है

ट्रक की टक्कर से दो दोस्तों की मौत

बाइक से तिंदवारी बाजार करने जा रहे थे, ट्रक छोड़कर मौके से भागा चालक

अमन लेखनी समाचार

बांदा, बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो दोस्तों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला बांदा जनपद के तिंदवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत भुजरख मोड़ के पास फतेहपुर-बांदा मार्ग का है। यहां दो दोस्त विजय सिंह और राजकरण बाइक में बैठकर पपरेंदा घाट से तिंदवारी बाजार करने जा रहे थे। बांदा से तिंदवारी जाते हुए ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मौके पर दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, ग्रामीणों ने जैसे ही देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया।

भाई ने बहन पर धारदार हथियार से किया हमला

- जीजा ने साले के सिर को ईंटो से कूंचा, वीडियो आया सामने; अमेठी का मामला

अमन लेखनी समाचार

अमेठी जिला, अमेठी में देर रात पारिवारिक विवाद में भाई में अपनी बहन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पत्नी को बीच सड़क खून से लतपथ तड़पता देख जीजा ने अपना आपा खो दिया और साले के सिर को ईंटों से कूंच दिया। अमेठी कोतवाली परिसर एक छोर पर घंटों खूनी संघर्ष होता रहा, लेकिन पुलिस मौके पर नही पहुंची। काफी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस गम्भीर रूप से घायल युवक को लेकर अमेठी सीएचसी पहुंची, जहां से उसकी स्थिति नाजुक देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल बहन का भी इलाज सीएचसी में चल रहा है। जिस समय घटना हुई उस समय मोहल्ले के लोग मौके पर मौजूद रहे, लेकिन बीच बचाव करने का साहस न जुटा सके। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, ये पूरा मामला अमेठी कोतवाली परिसर का है। जहां परिसर के एक छोर पर सुलभ शौचालय संचालित होता है। इस शौचालय को सूरज नाम का व्यक्ति संचालित करता है, जो अपने पूरे परिवार के साथ शौचालय के ही एक आवास में रहता है।

संक्षेप

दबंगों ने फल विक्रेता को पीटा

अमन लेखनी समाचार

जालौन, जालौन में दबंगों का कहर देखने को मिला है। जहां हथियार के बल पर एक फल विक्रेता के साथ मारपीट की। यह घटना उरई कोतवाली से महज 50 मीटर की दूरी पर दबंगों ने अंजाम दी। दबंगों द्वारा की जा रही इस गुण्डई का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो का संज्ञान लेने के बाद उरई कोतवाली पुलिस हरकत में आई साथ ही दबंगई दिखाने वाले दबंग के खिलाफ पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। मामला उरई कोतवाली से महज 50 मीटर दूरी पर स्थित शहीद भगत सिंह चौराहे की है। जहां पर एक फल विक्रेता द्वारा बुधवार शाम को अपनी फलों की दुकान लगाए गई थी, इसी दौरान शराब की नशे में धुत कुछ दबंग उसकी दुकान पर जामुन लेने पहुंचे। इस दौरान शराब के नशे में धुत दबंग ने कम तौलने की बात कही, जिस पर बगल में आम के फल की दुकान लगाए दुकानदार से तुलवाने के लिए कहा, जिस ओर बगल वाले ने कुछ और जामुन डालने के लिए कह दिया, जिस पर शराब के नशे में धुत दबंग ने फल वालों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए दबंगई दिखाकर मारपीट शुरू कर दी। जिसे देख और फल वाले मौके पर पहुंच गए और आपस में लड़ रहे लोगों को हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान दबंगों ने हथियार के बल पर उन्हें धमकाया, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसका संज्ञान लेते हुए उरई कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही इस घटना को अंजाम देने वाले दबंग के बारे में पता लगाने का प्रयास शुरू कर दिया।

डीएम ने निर्माणाधीन गौशाला का किया निरीक्षण

अमन लेखनी समाचार

जालौन, जौनपुर में गौशाला की व्यवस्था देखने के लिए बुधवार दोपहर को जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ऐरी रामपुरा पहुंचे। यहां उन्होंने निमार्णाधीन गौशाला का निरीक्षण किया। अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दिए, जिससे किसी प्रकार की कोई कमी गोवंशों को न हो। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गौशाला में संरक्षित गोवंशों को गुड़ खिलाकर गौ-सेवा की साथ ही गौवंशों और छोटे-छोटे गौवंश के बछिया, बछड़ों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने के लिए निर्देश दिए। जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी शिवाकांत के साथ ऐरी रामपुरा पहुंचे। यहां गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई, छाया एवं पानी की उपलब्धता, नेपियर घास, भूसा का भंडारण आदि व्यवस्थाएं देखी जो संतोष जनक मिली। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोवंशों को हरे चारे की कमी न रहे, इसके लिए नेपियर घास का उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। जनपद की समस्त गौशालाओं में संरक्षित गोवंशों को हरा चारा, पानी, भूसा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं, जो निरंतर भ्रमणशील रहकर व्यवस्थाएं चुस्त कर रहे हैं।

युवा इंडिया कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य समापन समारोह

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। यूथ युटिल वेलफेयर एसोसिएशन(युवा इंडिया) एवं महिला अध्ययन केंद्र दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह एवं पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र वितरण कार्यक्रम विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रो० पूनम टंडन जी कुलपति दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा सरस्वती माँ की प्रतिमा पर पुसपार्चन एवं दीप प्रज्वलन किया गया। मुख्य अतिथि के समक्ष विभिन्न कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए जिन्हें सभी से प्रशंसा प्राप्त हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सभी शिक्षिकाओं को एवं विधाओं के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को पुरस्कृत किया एवं उनका उत्साहवर्धन भी किया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज के हर तबके के व्यक्तियों विशेष कर बच्चों और महिलाओं को कुछ नवीन गुड या कौशल सीखकर समाज के मुख्य धारा में ना केवल शामिल होना चाहिए वरन समाज के प्रति अपनी भूमिकाओं का सम्यक निर्वाह करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि डॉ मंगलेश श्रीवास्तव ने बतौर विशिष्ट अतिथि अपने उद्बोधन में कहा ऐसी कार्यशालाएं व्यक्तिव निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्पूर्ण होती है, इसलिए ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। विशिष्ट अतिथि वशिष्ठ नारायण सिंह एवं वेद प्रकाश मिश्रा जी द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉ दिव्य रानी सिंह ने आगंतुकों का स्वागत किया एवं कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर के बारे में बताया। संस्था अध्यक्ष रत्नेश तिवारी ने कि कहा कि संस्था द्वारा विगत 8 वर्षों से कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अबतक 2100 से ज्यादा महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और जो अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ रही है। मंच संचालन वसुंधरा वर्मा एवं चेतना पांडेय द्वारा किया गया।कार्यक्रम में सुशील प्रसन्ना, राकेश श्रीवास्तव, विजय कुमार श्रीवास्तव, प्रियंका श्रीवास्तव, मंजु अग्रवाल, सुरेंद्र तिवारी, साक्षी मिश्रा, जया तिवारी, पुष्पा तिवारी, अमन यादव, नवीकरण ओझा, नीतीश सिंह, दीपक चौरसिया, अभिषेक सिंह, कृति, चाँदनी, सिवंगी मिश्रा, विशाल कुमार आदि मुख्य भूमिका में रही।

सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास

पीड़ित ने एसडीएम से शिकायत कर कारवाई करने का किया मांग

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। सहजनवा तहसील अंतर्गत क्षेत्र के खानिमपुर में सार्वजनिक रास्ते पर किए जा रहे अवैध कब्जे को लेकर पीड़ित न उपजिलाधिकारी सहजनवा से शिकायत दर्ज कराते हुए जांच कराकर कारवाई कराने की मांग किया है। आरोप है की गांव के लोगो को आने जाने के लिए सीसी रोड का निर्माण कराया गया था। जिस पर गांव का एक मनबढ अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। साथ ही साथ पीड़ित के निजी भूमि में भी अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसके अलावा दिवाल तोड़कर कब्जा करने का प्रयास हो रहा है। विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के साथ फर्जी मुक्कमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने प्रशासन से मांग किया है की मामले की जांच कराकर अवसिध कब्जा हटाने साथ आरोपी पर कारवाई कराया जाय। इस संदर्भ में एसडीएम सहजनवा कुंवर सचिन सिंह ने कहा की राजस्व टीम और पुलिस को अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया है।

पुरानी रंजिश को लेकर पंच से मार कर युवक का सिर फोड़ा

पुलिस ने दो नामजद 8 से 10 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। सहजनवा थाना क्षेत्र के मटकापार निवासी युवक मजदूरी करने सहजनवा आ रहा था। पुरानी रंजिश को लेकर एक दर्जन की संख्या में मनबढ रास्ते में घेर कर जमकर पिटाई कर दिए। और पंच मार कर सिर को फोड दिए। पुलिस ने दो नामजद और 8 से 10 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी से सहजनवा थाना क्षेत्र के मटकापार निवासी अजीत पासवान पुत्र बृजलाल पासवान शनिवार को दिन में सुबह 10.30 बजे सहजनवा मजदूरी करने आ रहा था। कि अभी बसिया के पास पहुंचा था कि पुरानी रंजिश को लेकर एक दर्जन की संख्या में मनबढ गोलबंद होकर घेर लिए और हमला करते हुए लाठी डंडे, रॉड से मारा तथा पंच से मारकर सिर फोड़ दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अंकित यादव पुत्र रामकेश यादव, करन पासवान पुत्र अशोक पासवान तथा 8 से 10 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर कार्यशाला का हुआ आयोजन

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गीडा गोरखपुर में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (इन्नोवेशन सेल).एआईसीटीई एवं एकेटीयू के दिशा निर्देशन में संस्था के नवोन्मेष परिषद के द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए की सीएस आकांक्षा अग्रवाल ने बौद्धिक संपदा पर विस्तार से चर्चा करते हुए लोगों को कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जीआई टैग, पेटेंट आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे हम सृजनात्मक कार्य करें जो सभी से अलग हो एवं जिसमें किसी की भी नकल न की गई हो, साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में हम सभी को आईपीआर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिससे मानव जीवन हमेशा जुड़ा रहता है। अंत में उन्होंने छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी जवाब दिया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जीसी कंसल्टेंसी के सीईओ आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि जैसे-जैसे ग्रीनहाउस गैस एमिशन में वृद्धि हो रही है, वैसे-वैसे जलवायु में परिवर्तन गति पकड़ रहा है और दुनिया भर की आबादी चरम मौसम और जलवायु घटनाओं से गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व में निरंतर बढ़ता हुआ पर्यावरणीय विषय है। इसके लिए कोई एक देश जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इस समस्या को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व के देश जिम्मेदार हैं। असल में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और हमारी कुछ दैनिक गतिविधियों के कारण, पृथ्वी के तापमान में एक वैश्विक वृद्धि हुई है। संस्थान के निदेशक डॉ. एन.के. सिंह ने मुख्य वक्ता के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा की पेटेंट की व्यवस्था न होने से दूसरे देश इस ज्ञान को विश्व के सामने पेश कर रहे हैं। इस अवसर पर संस्थान के सभी शिक्षकगण एवं छात्र -छात्राएं मौजूद रहे।

मारपीट के मामले में पुलिस ने तीन के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। सहजनवां तहसील अंतर्गत हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मथौली निवासी गणेश गौंड पुत्र गोपी गौंड ने थाना पुलिस को तहरीर देकर छोटे भाई, मां, और छोटे भाई के पत्नी पर मारने पीटने और जान माल की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मथौली निवासी गणेश गौंड पुत्र गोपी गौंड को 26 जून को रात करीब साढ़े 9 बजे हमारे छोटा भाई दिनेश गौंड पत्नी काजल और माता गौरा देवी के साथ मिलकर बेवजह भद्दी भद्दी गालियां देते हुए लाठी डंडा से मारपीट कर घायल कर दिए तथा दांत से हाथ में भी काट लिए, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया, सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल भेजा। इस संबंध में थानाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि गणेश गौंड की तहरीर पर छोटा भाई दिनेश गौंड, पत्नी काजल और माता गौरा देवी के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ट्रेन से कट कर युवक की हुई मौत

अमन लेखनी समाचार

गोरखपुर। ट्रेन से कट कर युवक की हुई मौत।सहजनवा स्टेशन के पूरब गाहासांड पुल के पास 28 वर्षीय युवक की कट मौत हो गया है।इन्टर सिटी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने स्टेशन मास्टर को मेमो देकर जानकारी दिया। मृतक कि पहचान सुबास यादव पुत्र राम किशन 28 वर्ष निवासी बोकटा के रूप में हुई। सूचना पहुंची गीडा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

धूमधाम से मनाई गई महादानी भामाशाह की जयंती

अमन लेखनी समाचार/शोभित शुक्ला

फतेहपुर। जनपद फतेहपुर में व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर वीर व्यापारी महादानी भामाशाह की जयंती शनिवार को बस स्टैंड परिसर ज्वालागंज में धूमधाम से मनाई गई। उद्योग व्यापार मण्डल उत्तर प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा जिला अध्यक्ष मनोज कुमार साहू नगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी उपाध्यक्ष श्रवण कुमार दीक्षित व उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने भामाशाह जयंती कार्यक्रम समारोह में दानवीर भामाशाह के चित्र पर तिलक लगाकर पुष्पहार पहनाकर ज्योति प्रकाश करते स्मरण किया। उनके जीवन तथा उनके द्वारा राष्ट्र सेवा के लिए अपना सर्वस्त्र महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित कर मुगलों से जंग जारी रखने के लिए दे देने के महान कार्य को याद किया गया। इस अवसर पर उद्योग व्यापार मण्डल उत्तर प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा जिला अध्यक्ष मनोज कुमार साहू नगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी उपाध्यक्ष श्रवण कुमार दीक्षित संदीप श्रीवास्तव डाक्टर प्रमोद अरोड़ा अंकित गुप्ता सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मां बेटे की नृशंस हत्या

पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर बोले शीघ्र होगा घटना का अनावरण

अमन लेखनी समाचार/निर्मित द्विवेदी

बिंदकी, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के कोतवाली बिंदकी के थाना बकेवर क्षेत्र के ग्राम रुसी मे मां बेटे की नृशंस हत्या कर दी गई। इस दोहरे हत्याकांड से रुसी गाँव मे दहशत का माहौल है। दोहरे हत्याकांड की खबर मिलते ही बकेवर थाना प्रभारी निरीक्षक कांती सिंह मय पुलिस बल के मौके पर पहुंची और जिले के उच्चाधिकारियों को खबर दिया। हत्याकांड की खबर मिलते ही पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह, क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार द्विवेदी भी मौके पर पहुँच का घटना का जायजा लिया और सुसंगत धाराओं में घटना की रिपोर्ट दर्ज कर घटना के शीघ्र अनावरण का पुलिस अधीक्षक ने परिजनों को भरोसा दिलाया। घटना के सम्बन्ध मे मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात रुसी निवासी माया देवी अवस्थी पत्नी स्वर्गीय राम सहाय अवस्थी 55 वर्ष व उसके बेटे सत्यम अवस्थी 27 वर्ष की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दिया। सुबह जैसे ही लोगों को दोहरे हत्याकांड की खबर मिली बकेवर थाना पुलिस को सूचना दिया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक कांती सिंह पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंची तो देखा सत्यम का रक्त रंजिश शव बाथरूम के सामने पडा था और माया देवी का शव एक कमरे में पडा था और कमरे में दरवाजे की बाहर से कूंडी लगी है। हत्या प्रथदृष्टया हत्यारों ने किसी ईंट पत्थर या वजनी वस्तु मार कर मां बेटे की हत्या की है। इस सम्बन्ध में मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह ने बताया कि रुसी गाँव निवासी माया देवी पत्नी स्व. राम सहाय 55 वर्ष व उसके बेटे सत्यम 25 वर्ष की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दिया है। इस दोहरे हत्याकांड की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शीघ्र ही हत्याकांड के सभी पहलुओं पर जांच कर घटना का अनावरण किया जाएगा। इस दोहरे हत्याकांड को लेकर जहाँ ग्रमीणो में दहशत है वही चचाओं का दौर चल रहा है। मृतक सत्यम का छोटा भाई शिवम ड्राइवर है और घटना के दिन घर में मौजूद नही था। घटना को लेकर जमीनी विवाद बताया जा रहा है।

आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत

- दो महिलाएं झुलसी, घर के बाहर लेने गया था सामान, बिजली गिरने से हुआ हादसा

अमन लेखनी समाचार

दुद्धी, सोनभद्र के विंढमगंज थाना क्षेत्र से सटे झारखंड बॉर्डर पर स्थित चैनपुर गांव के निवासी सिद्धनाथ पासवान (32) पुत्र ज्वाहिर पासवान बीती रात अपने घर के पास लगे पेड़ के नीचे रखे कुछ सामान को लेने गया था। तभी तड़क गरज के साथ हो रहे तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया। जिसके बाद परिजनों ने सिद्धनाथ को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विंढमगंज ले गए। जहां से चिकित्सकों ने उक्त की हालत गंभीर देखते हुए सीएचसी दुद्धी के लिए रेफर कर दिया। जैसे ही सिद्धनाथ को दुद्धी अस्पताल लाया गया। चिकित्सक प्रवीण कुमार ने उसे देखते ही मृत्यु घोषित कर दिया। यह सुन परिजनों में मातम छा गया। औरसभी दहाडे मार कर रोने लगे। परिजनों ने सिद्धनाथ के शव का पीएम न कराने की बात कहकर शव को अपने साथ घर ले गए। वही विंढमगंज थाना के जोरूखाड की दो महिला भी आकाशीय बिजली की चपेट आकर झुलस गई। जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी में भर्ती कराया गया है। आकाशीय बिजली से झुलसी महिलाओं में संगीता देवी (38) पत्नी रामप्यारी व दिव्या भारती (19) पुत्री ओम प्रकाश जिन्हें निजी वाहन से लाकर भर्ती कराया।

सोनभद्र में पिकअप कार की भिड़ंत, 3 लोग घायल

जिला चिकित्सालय रेफर; अम्बिकापुर-रेणुकूट मार्ग हुआ हादसा

अमन लेखनी समाचार

बभनी, सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र में अम्बिकापुर-रेणुकूट मार्ग पर कार और पिकअप की आमने सामने की टक्कर हो गई। जिसमें तीन लोग घायल हो गए। घायलों में से एक की स्थिति गम्भीर होने पर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया। अम्बिकापुर रेणुकूट मार्ग पर संवरा गांव के समीप सुबह के 6 बजे करीब छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर से बनारस जा रही कार और चंदौली से छत्तीसगढ़ की तरफ जा रही पिकअप की आमने सामने टकरा गई। टक्कर के बाद कार का एअर बैग खुल गया। जिससे कार में सवार अम्बिकापुर निवासी मो. आदिल पुत्र डा. समसुदोहा व चालक आशीष पुत्र हरिहर घायल हो गए। चालक को तो मामूली सी चोट आई है, लेकिन मो. आदिल को गम्भीर रूप से घायल है। वहीं पिंक अप चालक इन्दल पुत्र लाल जी यादव नौगढ़ चंदौली को भी मामूली चोट आई हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनी में भर्ती कराया गया है। जहां से मो. आदिल को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।

जालौन में प्रेमी-प्रेमिका ट्रेन से कटे

- रिश्ते में भतीजी लगती थी युवती, दोनों शादी करना चाहते थे

अमन लेखनी समाचार

जालौन, जालौन में प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। प्रेमी युगल के शव को ट्रैक पर देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। शिनाख्त के बाद परिजनों को इस बारे में सूचना दी। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। घटना कालपी कोतवाली क्षेत्र के छौक गांव की है। गांव के पास ही झांसी-कानपुर रेलवे ट्रैक है। कोतवाली कालपी के ग्राम बरदौली निवासी बृजलाल अहिरवार की ससुराल कोंच क्षेत्र के ग्राम हिंगुटा में थी। उसके बेटे मनीष अहिरवार (22) का अपने मामा के यहां आना रहता था। इसी दौरान मनीष का मामा के चचेरे भाई की बेटी दीक्षा गौतम (19) से मेल जोल बढ़ गया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम प्रसंग हो गया। इसी बीच दीक्षा बाद में उरई के मुहल्ला सुशील नगर में रहकर भदौरिया क्लासेस में कोचिंग करने लगी थी तो मनीष का यहां आना जाना हो गया था। दोनों शादी करने को राजी थे। लेकिन परिवार वाले इसके विरोध में थे। दोपहर को मनीष दीक्षा को अपने साथ ले गया और पूरा दिन साथ रहने के बाद गुरुवार तड़के कालपी कोतवाली क्षेत्र के झांसी कानपुर रेल मार्ग स्थित छौंक व ऊसरगांव के बीच रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कट कर जान दे दी। कुछ देर बाद उधर से गुजरे ग्रामीणों ने युवक-युवती के ट्रैक पर क्षत विक्षत शव देखे तो पुलिस को सूचना दी।

संक्षेप

जुंआ खेल रहे पांच हुए गिरफ्तार

अमन लेखनी समाचार

कुरारा, हमीरपुर। थाना क्षेत्र के बरुआ गांव में बीती शाम हार जीत की बाजी ताश के पत्तो में लगा रहे पांच लोगो को थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। क्षेत्र के बरुआ गांव में गांव निवासी मुनेश की किराना की दुकान के पीछे ताश के पत्तो में हार जीत की बाजी लगा रहे पांच लोगो को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। उप निरीक्षक राकेश कुमार ने हमराह कांस्टेबल शिवांग, आकाश कुमार, नवीन कुमार, सतेंद्र कुमार के साथ जाकर गांव निवासी महावीर निषाद पुत्र मैया दीन, रामफूल निषाद पुत्र श्याम लाल, धनुष निषाद पुत्र राजा, अमित यादव पुत्र राम औतार, बाबू सिंह निषाद पुत्र मनफूल निषाद के पास से माल फड़ से 2340 रुपया व जामा तलाशी में 210 रुपया बरामद कर ताश के बावन पत्ते बरामद किया। सभी के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर जुंवा खेलने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

थाने पर तहरीर देकर कार्यवाही करने की मांग

अमन लेखनी समाचार

कुरारा, हमीरपुर। थाना क्षेत्र के भोली ग्राम पंचायत के मजरा पटिया गांव निवासी महिला मजदूरों ने खेत में रबी फसल की कटाई करने की मजदूरी दिलाए जाने की तहरीर थाने में देकर कार्यवाही करने की मांग की है। क्षेत्र के पटिया गांव निवासी महिला मजदूर सदा पत्नी भोला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि अप्रैल माह में भौली गांव निवासी रमेश यादव के खेत में दिहाड़ी मजदूरी में मटर, लाही, चना आदि की कटाई की थी। तीन माह बाद भी हमलोगो की मजदूरी नहीं दे रहा है। महिलाओं ने बताया कि हम एक दर्जन से अधिक महिला ओ ने पंद्रह दिन कटाई की थी। पैसा मांगने पर टाल मटोल कर रहा है।हम मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित महिलाओं में अनीता पत्नी राम अवतार, बंदना पत्नी राजू, विद्या पत्नी राम बाबू, नीलम पत्नी लाल सिंह, राजकुमारी पत्नी छोटे सहित एक दर्जन से अधिक महिलाएं थाने में तहरीर देकर मजदूरी दिलाए जाने की मांग की है।

आंख की बीमारियो के प्रति किया गया जागरूक

अमन लेखनी समाचार

भरुआ, सुमेरपुर। शनिवार को ग्राम बिदोखर में सद ?गुरु नेत्र चिकित्सालय एवं साईट सेवर्स के सहयोग से ग्रामवासियों को आँख की बीमारियों एवं उपचार तथा मोतियाबिंद के बारे में जागरूक किया गया। जानकी कुण्ड नेत्र चिकित्सालय के डा. आशीष गुप्ता ने बताया कि जीवन में आखों का बड़ा महत्व है। आंख के बिना जीवन अंधकार मय हो जाता है इसलिए हमे आखों के प्रति सदैव संवेदनशील रहना चाहिए। प्रदीप रजक ने मोतियाबिंद के बारे में लोगो को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर गिरिजा शंकर द्विवेदी, ग्राम प्रधान लालाराम यादव, ग्राम प्रधान सुन्दरलाल प्रजापति, मुन्ना द्विवेदी, पिंटू दुबे, योगेंद्र, लल्लू सिंह, वृन्दावन शुक्ला, स्वामी हरेराम दास, बब्लू पाल, प्रदीप पाल, अनूप गुप्ता आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। सद ?गुरु नेत्र चिकित्सालय एवं साईट सेवर्स के तरफ से आखों की विभिन्न बीमारियो के लक्षण और बचाव से संबंधित प्रपत्र भी प्रदान किए गए।

01 जुलाई से पुरानी धाराओं में होगा बदलाव, पुलिस कर्मियों को पढ़ाया जा रहा नया कानून

अमन लेखनी समाचार

अमेठी। भारतीय दंड संहिता में दर्ज लगभग सभी प्रमुख धाराओं के संबंध में आम लोगों को जानकारी होगी जैसे दुराचार के मामले में 376, हत्या के प्रयास में 307, हत्या करने पर 302, धोखाधड़ी पर 420 आदि-आदि लेकिन अब अंग्रेजों के बनाए इन कानूनों में बदलाव होने जा रहा है। एक जुलाई से अब सभी धाराओं में बदलाव हो जाएगा और अंग्रेजी सरकार के समय से चली आ रही भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसके बदल भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) लागू हो जाएगी। इसे लेकर पुलिस विभाग अपने मातहतों को धाराओं का नया पाठ पढ़ा रहा है ताकि आपराधिक घटनाओं पर नई धारा के अनुसार कार्रवाई की जा सके। इसके लिये जिले स्तर पर पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। थानों से लेकर अदालतों में अभी तक अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1860 में बनाए गए कानून आईपीसी को ढोया जा रहा था। इसी के तहत रिपोर्ट दर्ज होती थी व अदालतों में सुनवाई होती थी। किसी भी एफआईआर को देखे तो उसमें सबसे पहले भारतीय दंड संहिता 1860 ही लिखा होता था। एक जुलाई से इसकी जगह एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता लिखा मिलेगा। आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं हैं। पुलिस लाइन में इसे लेकर प्रशिक्षण भी चल रहा है।

वहीं, अधिवक्ता भी नए कानून की किताबें पढ़ रहे हैं। हत्या के लिए अभी तक धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज होती थी, लेकिन एक जुलाई से धारा 103 के तहत रिपोर्ट दर्ज होगी। दुष्कर्म की धारा 376 की जगह मामला अब धारा 63 में दर्ज होगा। छेड़खानी की धारा 354 अब मानहानि की धारा होगी। पहले मानहानि की धारा 499 हुआ करती थी। इसी तरह डकैती की धारा 395 की जगह 310 (2) होगी। हत्या के प्रयास में अभी तक धारा 307 लगती थी, लेकिन अब 109 के तहत रिपोर्ट दर्ज होगी। धोखाधड़ी के मामले धारा 420 की जगह 316 में लिखे जाएंगे। इसी तरह से सभी अपराध की धाराएं परिवर्तित कर दी गई हैं। अब पुलिस कर्मी इसे पढ़ रहे हैं। नए कानून के तहत सात साल से ज्यादा सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इसके साथ ही अभी तक आरोपियों के हाथों में हथकड़ी लगाने का प्रावधान नहीं था। अब सात साल से ज्यादा सजा के मामले में पुलिस हथकड़ी का इस्तेमाल कर सकेगी। जिले में करीब 21 सौ से अधिक अधिवक्ता हैं। एक जुलाई से नया कानून लागू होने पर अधिवक्ताओं को भी तमाम कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। अधिवक्ताओं के सामने दिक्कत यह है कि पुराने मुकदमों की सुनवाई पुरानी धाराओं के तहत होगी। सजा का भी प्रावधान पहले वाला होगा। ऐसे में अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढेगी। अधिवक्ताओं को नए कानून के तहत जानकारी लेनी होगी। अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी हरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस अधिकरियों, इंस्पेक्टरों और सब-इंस्पेक्टरों की कई ट्रेनिंग जिले स्तर पर हो चुकी हैं। इसके अलावा अभी भी आगे की कई ट्रेनिंग होनी हैं। कई राउंड की ट्रेनिंग ऑनलाइन भी करवाई गई हैं। इसके अलावा पीटीसी सुल्तानपुर में भी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग के लिये भेजा जा रहा है।

क्षेत्र पंचायत की बैठक मे सांसद किशोरी लाल शर्मा हुए शामिल

अमन लेखनी समाचार

अमेठी। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा का स्वागत क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक मे किया। विकास कार्य पर चर्चा हुई। समस्याओ को दूर करने पर विचार हुआ। वारिस के पहले गांव की साफ-सफाई प्राथमिकता पर करे। क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओ पर चर्चा हुई। सघन रूप से वृक्षारोपण पर जोर दिया गया। इस अवसर विधान परिषद सदस्य शैलेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, के साथ विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने उपस्थित सम्मानित सदस्यो से अपील की ।कि लोगो के भविष्य के लिए काम करे। ताकि इलाका खुशहाल हो सके। बैठक कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी बल्दीराय ने प्रस्तुत किया। बिगत वर्ष का वित्तीय अनुमोदन ध्वनि मति से पारित किए।

डीएम एवं एसपी की अध्यक्षता में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबन्ध में गोष्ठी का आयोजन

अमन लेखनी समाचार

गौरीगंज अमेठी । जिलाधिकारी अमेठी व पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा पुलिस कार्यालय गौरीगंज में नये लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबन्ध में किया गया गोष्ठी का आयोजन किया गया । आज जिलाधिकारी अमेठी निशा अनंत व पुलिस अधीक्षक अमेठी अनूप कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय गौरीगंज सभागार में 01 जुलाई से लागू होने वाले नये भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबन्ध में गोष्ठी का आयोजन किया गया । गोष्ठी में संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा विभिन्न धाराओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई । इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अमेठी, संयुक्त निदेशक अभियोजन, अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी, समस्त उपजिलाधिकारीगण एवं क्षेत्राधिकारीगण व अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण मौजूद रहे।

जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

अमन लेखनी समाचार

मौदहा, हमीरपुर। गृह कलेश के चलते युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर कानपुर स्थित सरकारी अस्पताल में तोड़ दिया दम। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया और खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। प्राप्त जानकारी अनुसार कोतवाली क्षेत्र के करहिया गांव निवासी रामबालक पुत्र मूलचंद 28 वर्षीय ने शुक्रवार की दोपहर गृह कलह के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे आनन-फानन कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तबियत में सुधार न होने पर चिकित्सकों ने तत्काल सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने कानपुर के लाला लाजपत राय हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया, जहां देर रात अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। यह खबर परिजनों को मिलने पर कोहराम मच गया और गांव में सूचना मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई। मृतक अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को रोता बिलखता छोड़ गया।

कलौली जार में जुआ खेलते सात जुंआरी हुए गिरफ्तार

अमन लेखनी समाचार

हमीरपुर। अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत लहपुरा पुलिस ने कलौली जार में छापेमारी कर सात लोगों को हारजीत की बाजी लगाकर जुंआ खेलते हुये गिरफ्तार किया है। ललपुरा थाने के उपनिरीक्षक रणजीत बहादुर ने बताया कि अभियुक्त रुस्तम खां, संदीप कुमार कुशवाहा, सलमान खान, रुफी हसन, इसरत शेख, दीपक कुमार यादव और अंकित कुमार निगम निवासीगण कलौली जार को जुंआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मालफड़ में 15 हजार रुपए व जामा तलाशी में 923 रुपए सहित 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक रणजीत बहादुर के साथ कांस्टेबल स्वप्निल, अजय कुमार, मनोज कुमार, अनुरूद्ध यादव शामिल रहे।

संचारी रोग नियंत्रण अभियान जुलाई 2024 के सफल संचालन हेतु जिलाधिकारी ने ली बैठक

द्वितीय जिला अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया

अमन लेखनी समाचार/ उमेश दीक्षित

हमीरपुर। शनिवार को डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार हमीरपुर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान जुलाई 2024 के सफल संचालन हेतु जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय की अध्यक्षता में द्वितीय जिला अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया, बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी ने अवगत कराया कि यह कार्यक्रम जनपद में 01 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक द्वितीय चरण संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 11 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक दस्तक अभियान एवं 01 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक डायरिया रोको अभियान चलाया जाना है। बैठक में इस कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु बी0टी0एफ0 का आयोजन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण(टी0ओ0टी0) सभी संबंधित विभागों द्वारा समय से चलायी जाने वाली गतिविधियों एवं कार्य दायित्व पर पारम्परिक समन्वय से कार्य करने हेतु अपील की गयी। यूनीसेफ के बी0एम0सी0 सरफराज खॉन ने विगत चरण अप्रैल 2024 का मॉनीटरिंग फीडवैक प्रस्तुत किया। इस अभियान के साथ-साथ डायरिया रोको अभियान भी चलाया जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) नागेन्द्र नाथ यादव ने सभी विभागों को समयन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, तथा सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि अतिसंवेदनशील (हाट-स्पाट) क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की अवश्यकता है। वहॉ पर प्राथमिकता के आधार पर मच्छरजनित गतिविधियॉ यथा दवाओ का छिड़काव सुनिश्चित किया जाए, जिससे मच्छर लार्वा उत्पन्न होने को बाधित किया जा सके तथा साथ ही साथ साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाय। सभी कार्यालयध्यक्षों को अपने कार्यालय की छतों को वर्षा के पूर्व साफ-सफाई कर दी जाए जिससे पानी के जमाव न होने पाये, तथा कूड़े-कचड़े को भी इधर-उधर न फेंका जाय। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की प्रतिदिन मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाय। दिनॉक 01 जुलाई 2024 को इस अभियान का शुभारम्भ जिला स्तर, ब्लाक स्तर, व ग्राम स्तर एवं सभी कार्यालयों में अवश्य किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने उपनिदेशक कृषि के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी गीतम सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विजय शंकर तिवारी, उपजिलाधिकारी (सदर) पवन प्रकाश पाठक, डिप्टी कलेक्टर अभिमन्यु कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी जितेन्द्र मिश्रा, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डॉ अरविन्द्र कुमार, जिला कृषि अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला दिव्यांगजन अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका हमीरपुर, सहायक आयुक्त खाद् सुरक्षा अधिकारी समस्त ए0एम0ओ0आई0सी0, डी0एल0ओ0, डी0टी0ओ0, डीएम0ओ0 सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

ईवीएम/वीवीपैट वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का डीएम ने किया निरीक्षण

अमन लेखनी समाचार

अमेठी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी निशा अनंत ने आज राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित ईवीएम/वीवीपैट वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया। उन्होंने गोदामों में रखी बीयू/सीयू तथा वीवीपैट के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरा को भी देखा तथा गोदाम में लगी सिक्योरिटी को 24 घंटे तैनात रहने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निदेर्शानुसार वेयरहाउस में ईवीएम एवं वीवीपैट के सुरक्षित भंडारण एवं सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में आज वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारी व निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे।

33 केवी लाइन के इंसुलेटर ब्रस्ट होने से दो दिन से ठप है आपूर्ति

अमन लेखनी समाचार

भरुआ, सुमेरपुर। शुक्रवार की रात से गायब बिजली के दर्शन शनिवार के शाम तक नहीं होने से सुमेरपुर द्वितीय एवं विदोखर सब स्टेशन के उपभोक्ता गर्मी में हलाकान रहे। सुबह कई गांवो में जलापूर्ति भी नहीं हुई। विभाग आकाशीय बिजली के चमकने से 33 केवी लाइन के इंसुलेटर ध्वस्त होने की बात कह रहा है।

महज 5 वर्ष पूर्व बनी 33 केवी लाइन में लगे घटिया उपकरण आंधी पानी का धक्का नहीं झेल पा रहे हैं। गुरुवार एवं शनिवार को हुई बारिश ने 33 केवी लाइन का बुरा हाल कर दिया है। इस लाइन में खराबी आने से सुमेरपुर द्वितीय एवं विदोखर विद्युत सब स्टेशन की आपूर्ति ठप पड़ी है। शुक्रवार के शाम को कुछ देर के लिए आपूर्ति बहाल हुई लेकिन अर्धरात्रि में जैसे ही मौसम में पलटी मारी बिजली गुल हो गई और शनिवार शाम तक बिजली के दर्शन नहीं हो सके हैं। पावर हाउस के अवर अभियंता महेश चंद्र तिवारी ने बताया कि 2 दिन में 33 केवी लाइन के 23 इंसुलेटर ब्रस्ट हुए हैं। इनको बदला गया है। शाम तक आपूर्ति बहाल करने के लिए लाइनमैन मरम्मत में जुटे हुए हैं। शाम तक दोनों फीडरो की आपूर्ति बहाल करा दी जाएगी।

पैसे वापस न करने की पुलिस को दी तहरीर

अमन लेखनी समाचार

कुरारा, हमीरपुर। कस्बा कुरारा के भौली रोड वार्ड नंबर चार निवासी ने खेत बिक्री के लिए एडवांस दिए जाने व अब हीला हवाली करने तथा पैसे वापस न करने की तहरीर थाने में देकर कार्यवाही करने की मांग थाना पुलिस से की है। कस्बे के वार्ड चार निवासी संजय कुमार पुत्र रमेश चंद्र ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 6 मई को कानपुर जनपद के सजेती थाना क्षेत्र के असवार मऊ गांव निवासी देवीचरण पुत्र रामसेवक मेरी समोसे की दुकान पर आया तथा कुरारा क्षेत्र के शंकर पुर गांव की खतौनी दिखाई तथा खेत बिक्री करने की बात कही। तब आपस में खेत तय हो गया। जिसमे खेत के बैनामा करने के लिए एक लाख रुपए बतौर बयाना दे दिया। एक सप्ताह बाद शेष धनराशि तैयार हो जाने पर जब देवी चरण से खेत बैनामा करने को कहा तो वह टाल मटोल करने लगा। तथा तय कीमत से अधिक पैसा मांगने लगा। जब मैने बयाना की धनराशि वापस करने को कहा वह वापस नहीं कर रहा है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्यवाही करने की मांग की है।

प्रधान के भाई की हत्या, मुकदमा दर्ज

अमेठी। जिले में बेनीपुर के पास एक ग्राम प्रधान के भाई की कथित रूप से ईंट-पत्थर से हमला करके हत्या कर दी गयी। मिली जानकारी के अनुसार अजय सिंह (45) शुक्रवार की रात अपने साथी सौरभ के साथ मोटरसाइकिल से अमेठी से कडेरगांव जा रहा था तभी रास्ते में अमेठी-सुल्तानपुर मार्ग पर बेनीपुर नहर के पास मोनू पासी समेत दो लोगों ने उस पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में अजय गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठे सौरभ ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि अजय सिंह अमेठी थाना क्षेत्र के कडेरगांव का रहने वाला था। उन्होंने बताया कि वह कडेरगांव के प्रधान पवन सिंह का भाई था। शुरूआती जांच में मालूम हुआ है कि हमलावरों का अजय सिंह के साथ विवाद था और वारदात के वक्त हमलावर नशे में थे। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश की जा रही है।

एक माह बीते जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली

अमन लेखनी समाचार

शुकुल बाजार, अमेठी। बीते तीस मई की रात थाना क्षेत्र के नेवाजगढ़ में भैस चोरी के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास चोरी, मारपीट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। वही आज एक माह बीते जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। जिसके चलते भैस चोरी के आरोपियों तक नही पुलिस पहुंच सकी है। पूरा मामला थाना क्षेत्र के नेवाजगढ़ कैथन गांव का है। यहां के रहने वाले लल्लू पासी की पशुशाला से बीते तीस मई की रात पिकअप गाड़ी पर लाद कर भैंस चोरी करते देख ग्रामीणों ने शोर मचाया था। ग्रामीणों की शोर सुनकर पिकअप समेत चोर भागने लगे। पीड़ित लल्लू पासी के भाई प्रवेश व बेटा सुरजीत बाइक से पिकअप का पीछा किया। पिकअप को ओवरटेक करके गाड़ी रोकवाने का प्रयास किया। पिकअप सवार चोरों ने डंडे से हमला कर दिया। बाइक अनियंत्रित होकर होकर गिर गई। जिसमे पीड़ित लल्लू पासी के भाई प्रवेश व बेटा सुरजीत गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद पिकअप भी पेड़ से टकरा गई। लेकिन मौका पाकर आरोपी फरार हो गए थे। इस मामले पीड़ित लल्लू ने अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था। वही आज एक माह बीते जाने के बाद भी पुलिस न तो वाहन मालिक व ड्राइवर तक भैस चोरी के आरोपियों तक नही पहुंच सकी है। थाना अध्यक्ष तनुज पाल द्वारा इस मामले के विवेचना उपनिरीक्षक रामकरन प्रसाद को सौंपी थी। विवेचना सौपे जाने के 25 दिन बीत जाने बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा सके थे। इसी बीच एक अन्य मामले में उपनिरीक्षक के ऊपर घूस लेने का पीड़ित द्वारा आरोप लगाया गया था। जिसके चलते उन्हे पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि भैंस चोरी के मामले में भी कही आरोपी उपनिरीक्षक द्वारा पैसे लेकर बचाव तो नही किया गया जिसके चलते अभी तक विवेचना में शिथिलता बरती गई । वहीं अब देखना यह है कि मामले की जांच और आरोपियों को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी। थाना अध्यक्ष तनुज पाल का कहना है कि मामले की जांच उप निरीक्षक विनोद कुमार द्वारा की जा रही है। पुलिस को मामले अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही वाहन मालिक सहित भेस चोरी की आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

झमाझम बारिश से खेत खलिहान लबालब किसान खुश, धान की रोपाई में आएगी तेजी

अमन लेखनी समाचार/उमेश दीक्षित

भरुआ, सुमेरपुर। शनिवार तड़के मानसून की झमाझम बारिश से खेत खलिहान सब कुछ लबालब हो गए। इस बारिश से धान किसानों के चेहरे चमक उठे हैं। अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष ब्लॉक क्षेत्र में धान की फसल का रकबा बढ़ने की उम्मीद है। किसान खरीफ की अन्य फसलों की बजाय धान की फसल को प्राथमिकता दे रहे हैं। शनिवार को तड़के मानसून के बदरा झूमकर बरसे। सुबह खेत खलिहान लबालब देखकर किसानों के चेहरे खिल गए। सबसे ज्यादा राहत धान किसानों को मिली है। इस बारिश के बाद धान की रोपाई में तेजी आने की उम्मीद बढ़ी है। किसान परशुराम यादव, उदयभान यादव, सुरेश कुमार, राजू, मानसिंह भदौरिया, प्रदीप गुप्ता, भोला तिवारी आदि ने कहा कि मानसून की यह बारिश धान की फसलों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही अन्य फसलों के बोने का भी मार्ग प्रशस्त हो गया है। फिलहाल अधिक बारिश होने से अभी अगले चार-पांच दिन तक धान की रोपाई के अलावा अन्य फसलों की बुवाई का कोई कार्य संभव नहीं दिख रहा है। अगर और बारिश होती है तो ज्वार, अरहर, मूंग, तिल, मूंगफली, उर्द, मक्का, बाजरा, सांवा, कोदों, रागी, सनई, ठेंचा आदि की फसलों की बुवाई में देर हो सकती है।

दो सगे भाइयों के परिवारों के मध्य हुई मारपीट में बड़े भाई की मौत

अमन लेखनी समाचार

मुसाफिरखाना, अमेठी। शुक्रवार की देर शाम भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीनगर गांव में घर के सेहन की भूमि को लेकर दो सगे भाइयों के परिवारों के मध्य हुई मारपीट में बड़े भाई राम नेवाज की मौत हो गई वही पत्नी सुषमा व पुत्र राम चरन गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तार के लिए पुलिस टीम गठित कर दी है वही एहतियातन पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी है।

मिली जानकारी के मुताबिक भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के अलीनगर गांव में राम नेवाज व राम जग दोनो सगे भाइयों के परिवारों के मध्य घर के सेहन की भूमि को लेकर शाम करीब छः बजे विवाद हो गया। विवाद के दौरान राम जग के पक्ष ने राम नेवाज के साथ कहासुनी के दौरान मार पीट होने लगी। मारपीट होते देख पत्नी सुषमा व पुत्र राम चरन भी बचाने दौड़े। मारपीट के दौरान राम नेवाज जमीन पर गिर गए वही पत्नी सुषमा व पुत्र राम चरन को भी चोटें आईं। जिन्हे परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने राम नेवाज को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष दया शंकर मिश्र सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी हासिल करते हुए पीड़ित परिजनों को कार्यवाही का भरोसा दिलाया। मृतक के पुत्र राम चरन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित करने हुए शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। वही मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि दोनो परिवारों के घर बगल बगल होने के साथ ही आपस मध्य काफी मधुर रिश्ते थे किंतु कुछ समय पहले सड़क के किनारे स्थित भूमि को लेकर विवाद हुआ था। भूमि की पैमाईश के बाद राम नेवाज ने अपने हिस्से की भूमि पर बाउंड्रीवाल करा लिया। शुक्रवार की शाम को राम जग ने भी घर के सेहन स्थित भूमि पर बाउंड्रीवाल कराने के उद्देश्य से चिन्हांकन करते हुए सरिया गाड़ दिया जिसे दूसरे पक्ष ने अपने हिस्से में कहते हुए मना कर दिया और आपत्ति जताई। जो घटना का कारण बन गई। थानाध्यक्ष दया शंकर मिश्र ने बताया कि परिजन की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। घटना में शामिल लोगों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अमन लेखनी
(हिन्दी दैनिक)

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती अखिलेश सिंह द्वारा अवध एक्सप्रेस प्रकाशन, 434, सिविल लाइन, जेल रोड, उन्नाव, उत्तर प्रदेश से मुद्रित और ग्राम व पोस्ट-बनी, थाना- बन्थरा, लखनऊ-226401 (उ.प्र.) से प्रकाशित।

सम्पादक – श्रीमती अखिलेश सिंह

समाचार सम्पादक – रुद्र प्रताप सिंह

समाचार से संबंधित सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।

मो. - 9838159555, 9935457982

E-mail address amanlekhaninews @gmail.com

मुंबई के पॉश इलाके में खरीदा नया अपार्टमेंट

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई हिट फिल्मों में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता ने अब मुंबई के पाली हिल के आलीशान इलाके में एक नया अपार्टमेंट खरीदा है। स्क्वायर याड्र्स द्वारा पोस्ट किए गए संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, उन्होंने 9.75 करोड़ रुपए में यह संपत्ति खरीदी है। उनका नया घर लगभग 1,027 स्क्वायर फीट का है और अभिनेता इसमें रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 25 जून को, इसकी प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके लिए आमिर ने 30 हजार रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस और 58.5 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी का पंजीकरण शुल्क दिया है।

लाइफ Style

सुहाना खान

रूमर्ड ब्वॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करती दिखीं

एजेंसी ⏭ मुंबई

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। कभी अपनी ड्रेस और लुक्स की वजह से तो कभी अपने रिलेशनशिप की चर्चाओं की वजह से। सुहाना ने 'द आर्चीज'से अभिनय के क्षेत्र में डेब्यू किया।

अब सुहाना खान शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग'में नजर आएंगी। इस बीच सुहाना को लंदन में अपने रूमर्ड ब्वॉयफ्रेंड के साथ स्पॉट किया गया है। दरअसल, सुहाना और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के डेटिंग की अफवाहें तब से चल रही हैं जब से उन्होंने 'द आर्चीज' की शूटिंग की है, तब से इन्हें कई बार एक साथ देखा गया है। सुहाना और अगस्त्य नंदा की डेटिंग की अफवाहों को तब हवा मिल गई जब दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। जिसमें दावा किया गया कि दोनों स्टार किड्स को एक साथ लंदन के एक क्लब में पार्टी करते हुए देखा गया।

दोनों एक-दूसरे के साथ पार्टी का आनंद उठाते हुए नजर आएं। इससे प्रशंसकों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि वे दोस्त से कुछ ज्यादा हैं। एक फैन पेज ने ट्विटर पर सुहाना की कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा कीं। वीडियो को साझा करते हुए दावा किया गया कि इसमें शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान एक नाइट क्लब में दिख रही हैं। उनके सामने अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा काले रंग की शर्ट में खड़े हैं और उनके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान दिख रही है।

हॉलीवुड मसाला

मौत के समय हो चुके थे दिवालिया

लॉस एंजिलिस। हॉलीवुड के मशहूर पॉप स्टार माइकल जैक्सन पूरी दुनिया में चैरिटी यानी दान देने के लिए मशहूर थे। वहीं लॉस एंजिल्स की अदालत ने एक दस्तावेज जारी करते हुए बताया कि अपने मृत्यु के समय गायक भयंकर रूप से कर्ज में डूबे हुए थे। उनपर 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा का बकाया था। गायक 25 जून 2009 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। माइकल जैक्सन की मौत 50 वर्ष की आयु में लंदन के विस्तारित 'दिस इज इट' रेजीडेंसी की तैयारी के दौरान हो गई थी। जो जुलाई 2009 से मार्च 2010 तक चलने वाली थी।

अब नहीं टूटेगा मर्लिन मुनरो का घर

लॉस एंजिलिस। अमेरिकी अभिनेत्री और मॉडल मर्लिन मुनरो के लॉस एंजिल्स स्थित घर को लॉस एंजिल्स सिटी काउंसिल द्वारा बुधवार को ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्मारक नामांकन में मंजूरी दी गई है। इस पदनाम का उद्देश्य इस ऐतिहासिक स्थल को टूटने से बचाने में मदद करना है। दरअसल, मुनरो ने जिस घर में आखिरी सांस ली थी, उसे ब्रिना मिलस्टीन और उनके पति, रियलिटी टीवी निर्माता रॉय बैंक ने पिछले साल खरीद लिया था, जिसे वह तोड़ना चाहते थे, लेकिन अब इसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्मारक का नाम दे दिया गया है। एल.ए. कंजर्वेंसी ने एक्स पर साझा करते हुए लिखा, 'ब्रेंटवुड में मर्लिन मुनरो का घर अब एक ऐतिहासिक-सांस्कृतिक स्मारक है! एल.ए. सिटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से मर्लिन मुनरो के अंतिम घर के लिए नामांकन को मंजूरी दे दी।

कश्मीरी होने पर लोगों ने मारे ताने

नई दिल्ली। हिना खान बीते 15 सालों से एक्टिंग की दुनिया में काम कर रही हैं। वह टीवी की दुनिया की महंगी एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं। लेकिन एक्ट्रेस बनना हिना का पहला सपना नहीं था। एक्ट्रेस बनने से पहले वह कुछ और ही बनना चाहती हैं, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक्ट्रेस बना दिया। उसे लोगों ने कश्मीरी होने पर ताने भी मारे। हिना खान ने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में पॉपुलर टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से की थी। इसी सीरियल की वजह से उन्हें घर-घर में पहचान मिली थी। उन्होंने बताया था कि एक प्रोजेक्ट के हाथ से इसलिए निकल गईं, क्योंकि उनका रंग कश्मीरी लड़की लड़की जैसा नहीं था। उस प्रोजेक्ट में उन्हें कश्मीरी लड़की का रोल प्ले करना था। हालांकि उन्हें ये कहकर मना कर दिया गया था कि वो कश्मीरी नहीं दिखती हैं।



आयुष्मान ने ताहिरा पर जताया गर्व

मुंबई। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप निर्देशित फिल्म 'शर्मा जी की बेटी' के लिए उन पर गर्व जताया है। आयुष्मान खुराना और उनकी पत्नी ताहिरा अक्सर एक दूसरे को सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ताहिरा की निर्देशन में बनी उनकी डेब्यू फिल्म 'शर्माजी की बेटी' की 28 जून को प्रीमियर हुई और अभिनेता ने अपनी पत्नी की उपलब्धि पर गर्व जताया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पत्नी ताहिरा कश्यप की प्रशंसा करते हुए तस्वीरें पोस्ट कीं। जिसमें की बचपन की तस्वीर भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य तस्वीरें इस पोस्ट में साझा की हैं। ताहिरा के निर्देशन में बनी फिल्म के बारे में बात करते हुए लिखा, 'आपकी आत्मा हर उस चीज में झलकती है जिसे आप छूती हैं, यही वजह है कि 'शर्माजी की बेटी' इतनी खास फिल्म है।

टीवी मसाला

बिग बॉस के इन प्रतियोगियों पर लगा फेक शादी रचाने का आरोप

नई दिल्ली। 'बिग बॉस ओटीटी 3' की शुरुआत हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह सबसे विवादित शो में से एक है। सीजन 3 में भी एक से बढ़कर एक प्रतिभागी आए हैं। शो की शुरुआत से ही बीबी हाउस में बवाल मचा हुआ है। वहीं, इस शो के कुछ पूर्व प्रतियोगी ऐसे भी रहे हैं, जिन पर टीआरपी के लिए नकली शादी रचाने का आरोप लग चुका है। इन चर्चित चेहरों ने टीआरपी के लिए नकली शादी रचाई और आगे जाकर मुकर गईं। इस तरह ये हीरोइनें नेशनल टेलीविजन पर शादी का मजाक उड़ा चुकी हैं। इस लिस्ट में शहनाज गिल से लेकर राखी सावंत तक शामिल हैं। शहनाज गिल ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' से घर-घर में अपनी पहचान बनाई। शो के होस्ट सलमान खान, शहनाज को पंजाब की कटरीना कैफ कहते हैं। वहीं, 'बिग बॉस 13' शो के खत्म होते ही शहनाज गिल ने अपना स्वयंवर रचाया था। शो में सना ने प्रतियोगियों से खूब मेहनत कराई। हालांकि, फिनाले में शहनाज ने किसी को भी चुनने से इनकार कर दिया, और शादी से मुकर गईं। ऐसा करने के बाद शहनाज पर आरोप लगा कि उन्होंने महज फेम के लिए यह ढोंग रचा था। जसलीन मथारू और अनूप जलोटा ने बतौर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड 'बिग बॉस' शो में एंट्री ली थी।

कलाकारों का नहीं मिला बकाया निर्माताओं को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। टीवी शो 'लाल बनारसी' के कलाकार सावी ठाकुर, गौरी चित्रांशी और कुलदीप सिंह ने अपने पूरे पैसे का भुगतान न होने के चलते निर्माता संतोष कुमार और रोशेल सिंह को नोटिस भेज दिया है। इस शो का प्रसारण मई 2023 में शुरू हुआ था और इस साल मई के दूसरे हफ्ते में खत्म हो गया था। शो के एक और अभिनेता कुलदीप सिंह के मुताबिक उन्होंने दिसंबर से मार्च तक शूटिंग की थी और उन्हें इसके लिए 4,70,000 रुपए मिलने थे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि टीवी इंडस्ट्री में आमतौर पर शो शुरू होने के 90 दिन बाद पैसा मिलना शुरू होता है, लेकिन लाल बनारसी के निर्माताओं ने इसे 120 तक खींच दिया और उसके बाद भी समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा था। कुलदीप ने कहा कि उन्हें घर का लोन भरने के साथ-साथ बाकी की जिम्मेदारियों के लिए भी पैसे की जरूरत है और कोई दूसरा रास्ता नहीं होने के कारण उन्होंने निर्माता को कानूनी नोटिस भेज दिया है।

छात्रों का किया मार्गदर्शन नशे से दूर रहने की दी सीख

मुंबई। थलपति विजय दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार हैं। वह मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करते हैं। हाल में ही वह इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित करने एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्रों को जीवन से संबंधित कुछ कठोर सबक दिए, जो बच्चों को गंभीरता से समझनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'चाहे कोई भी कारण हो,मगर किसी भी कीमत पर अपनी पहचान न खोएं। मैं अभी यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे राज्य में नशीले पदार्थों का काफी ज्यादा उपयोग होता है, खासकर युवाओं में इसका बहुत अधिक उपयोग होता है।' एक अभिभावक और एक राजनीतिक संगठन के नेता के रूप में उन्हें इस पर शर्म आती है। मेरा कहना है कि कभी-कभी हमें इन परिस्थितियों से खुद ही खुद को बचाना पड़ता है। हमेशा उन्हें खुद पर नियंत्रण और अनुशासन रखना चाहिए। क्षणिक खुशियां देने वाली चीजों और नशीली दवाओं का सेवन न करें।



करण ने सोनाक्षी को दिया 'कूल दुल्हन' का टैग

मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने सात साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 23 जून को अपनी शादी की शुरुआत की। उनकी शादी के फंक्शन की तस्वीरों और वीडियो ने जोड़े की खुशी को खूबसूरती से कैद किया। सोनाक्षी और जहीर को उनकी नई शुरुआत के लिए फिल्म इंडस्ट्री से शुभकामनाएं मिलीं। अब, फिल्म निर्माता करण जौहर ने खुलासा किया है कि उन्हें उनकी शादी में क्या पसंद आया। उन्होंने सोनाक्षी को 'सबसे कूल दुल्हन' भी कहा। उन्होंने सोनाक्षी के ब्राइडल लुक की तारीफ की और उनकी शादी की सादगी को देखकर हैरान रह गए। करण ने कहा, 'आप जानते हैं कि सोनाक्षी के बारे में मुझे जो सबसे अच्छा लगा, वह यह था कि वह सबसे अच्छी दुल्हन थी। वह मस्त थी। जहीर और सोनाक्षी प्यारे लग रहे थे। वे खुश दिख रहे थे, वे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और कोई तामझाम या दिखावा नहीं था। यह सिर्फ शुद्ध प्रेम और मस्ती थी और यही बात मुझे उनकी शादी में पसंद आई।

रक्तबीज में एक्शन करते दिखेंगे आदित्य रॉय कपूर!

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता आदित्य रॉय कपूर जल्द ही राज और डीके की अगली वेब सीरीज में नजर आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेब सीरीज का नाम 'रक्तबीज' रखा गया है। इसके लिए आदित्य को ऑफर मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्शन सीरीज में आदित्य के साथ सामंथा रूथ प्रभु भी मुख्य भूमिका में होंगी। 'द नाइट मैनेजर' के बाद आदित्य रॉय कपूर का ओटीटी के लिए दूसरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी थी। इसके तुरंत बाद निर्माताओं ने सामंथा को भी इस सीरीज में शामिल कर लिया था। दोनों कलाकारों ने सीरीज के लिए अपनी-अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। जल्द ही दोनों इस एक्शन सीरीज के लिए साथ में भी ट्रेनिंग लेंगें। खबर के मुताबिक, राज और डीके की जोड़ी फिलहाल फैमिली मैन के तीसरे सीजन की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसके बाद ये निर्देशक जोड़ी इस साल अगस्त तक 'रक्तबीज' को फ्लोर पर लाने की योजना बना रहे हैं। राज और डीके की फैमिली मैन में भी सामंथा रूथ प्रभु नजर आई थीं। सामंथा रूथ प्रभु ने इस सीरीज को लेकर एक इवेंट में कहा था, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्शन करूंगी। ये मेरे लिए बड़ी जीत है। मुझे नहीं लगा कि मैं सिटाडेल का हिस्सा बनूंगी। मैं राज, डीके, सीता और अमेजन की बहुत आभारी हूं।'

मांगी चंद दिनों की मोहलत और 2 हफ्तों में रच दिया इतिहास

डायरेक्टर ने किया रिजेक्ट, रो पड़े पंचम दा

नई दिल्ली। म्यूजिक के जादूगर आरडी बर्मन भले ही हमारे बीच नहीं हैं लेकिन वह आज भी अपने टैलेंट की वजह से पूरी दुनिया पर राज करते हैं। पंचम दा के नाम से मशहूर आरडी बर्मन ने 1960 से 1980 के दशक तक एक्टिव थे। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों सुपरहिट गाने दिए। आरडी बर्मन की चमक ऐसी थी कि उनके जैसा न कोई हुआ और ना कोई होगा। संगीत की दुनिया में दशकों तक राज करने वाले पंचम दा का जन्म 27 जून,1939 को कोलकाता में हुआ था। आरडी बर्मन ने साल 1994 में 4 जनवरी को दुनिया को अलविदा कहा था. आर डी बर्मन को गए हुए 30 साल बीत चुके हैं। हालांकि उनकी यादें और नग्में आज भी सुर्खियों में रहती हैं। उनकी लाइफ से जुड़ी हर छोटी-छोटी बात दर्शकों और म्यूजिक प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। संगीतकार आरडी बर्मन ने 300 से ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक कंपोज किया था। उनके गाने 21वीं सदी के युवाओं की पहली पसंद है। आज भी उनके गाने को फैंस यूट्यूब पर सर्च करके सुनते हैं और खूब एन्जॉय करते हैं।

पंचम दा ने रिजेक्शन को किया इग्नोर

आईएमडीबी की रिपोर्ट्स के अनुसार, सुपरहिट परिंदा के बाद जब विधु अपनी दूसरी फिल्म '1942 ए लव स्टोरी' लेकर आए तो उन्हें इस फिल्म के गाने के लिए पंचम दा को अप्रोच किया था। पंचम दा ने बिना देरी किए विधु से वादा किया कि वे उनकी फिल्म में म्यूजिक देंगे। विधु जब अपने गाने के लिए पंचम दा के घर पहुंचे तो उन्होंने अपना पहला गाना 'कुछ न कहो ,कुछ भी न कहो' गीत सुनाया लेकिन विधू इस गाने से खुश नहीं हुए। उन्होंने इस गाने को रिजेक्ट कर दिया। पंचम दा ने इस रिजेक्शन को इग्नोर किया और कुछ नहीं कहा। लेकिन विधु जाते-जाते पंचम दा से कहा- आपके पीछे जो तस्वीर लगी हुई है मुझे उनके जैसे संगीत की तलाश है और मुझे पता है कि वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। पंचम दा पीछे पलटे और अपने पिता सचिन देव बर्मन की तस्वीर की तरफ देखा। वह यह देखकर बहुत भावुक हो गए।

किसी के पास नहीं जाते थे काम मांगने

1960 से 1980 तक पंचम दा के गानों कहा बॉक्स ऑफिस पर चार्टबस्टर साबित होते थे। वो कुछ लिख देते थे वह हिट हो जाता है। हालांकि 80 का दशक खत्म होते और 90 का दशक आते ही पंचम दा का स्टारडम और जलवा दोनों ही कमजोर पड़ गया था। 90 का दशक आते ही म्यूजिक इंडस्ट्री में एक से एक नए कंपोजर अपनी धाक जमा चुके थे। नदीम -श्रवण ,आनन्द मिलिंद ,शिव हरी ,जतिन-ललित जैसे म्यूजिक कंपोजर को फिल्मों में काफी महत्तव मिलने लगा था। ऐसे में पंचम दा को कम ऑफर मिलने लगे थे। यह समय पंचम दा के लिए काफी कष्टकारी और निराश करने वाला था। हालांकि उनकी एक खूबी थी। वह कभी भी किसी के पास काम मांगने के लिए नहीं जाते थे. लेकिन वह काम की तलाश में बैठे रहते थे. ऐसे में एक दिन अचानक से उन्हें एक बड़ा ऑफर मिला। एक यंग डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म के अप्रोच किया। यह ऐसा मौका था जिस पर पंचम दा को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके गानों की आज भी डिमांड होगी। ऐसे में पंचम दा भावुक हो गए। वह खुद को डायरेक्टर के सामने रोक नहीं पाए और रोने लगे थे।

आशा भोसले की बायोग्राफी लॉन्च पर सोनू निगम ने धोए गायिका के चरण, हुए भावुक

मुंबई। शुक्रवार को मशहूर गायिका आशा भोसले की बायोग्राफी 'स्वरस्वामिनी आशा' लॉन्च की गई। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उपस्थित रहे। उनके अलावा सोनू निगम, आशाताई की पोती जनाई भोसले भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर गायक सोनू निगम ने आशा भोसले की चरण धोए। आशा भोसले की बायोग्राफी की लॉन्चिंग पर अभिनेता जॉकी श्रॉफ भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आशा भोसले के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अभिनेता ने खास अवसर पर गायिका को गमला भेट किया। बुक लॉन्च के अवसर पर सोनू निगम ने कहा, 'देवी मां प्रणाम, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहता था। लेकिन, मुझे कहा गया है तो मैं यही कहूंगा कि आज सीखने के लिए बहुत से साधन हैं। लेकिन, जब सीखने के लिए कुछ नहीं था तो लताजी और आशाजी थीं। इन्होंने पूरी दुनिया को गाना सिखाया है। जो आपसे सीख सके उनके लिए धन्यवाद। जो सीख रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद।